

B.COM
Year – I
Semester – I
Paper - I

Sanskrit - I

Course Coordinator
Mr. H. Venkataraman
Assistant Professor



Centre for Distance and Online Education

श्रीचन्द्रशेखरेन्द्रसरस्वतीविश्वमहाविद्यालयः

Sri Chandrasekharendra Saraswathi Viswa Mahavidyalaya

Deemed to be University u/s 3 of UGC Act 1956 - Accredited with 'A' grade by NAAC

Enathur, Kanchipuram 631561.

Sponsored and run by Sri Kanchi Kamakoti Peetam Charitable Trust

Sri Chandrasekharendra Saraswathi Viswa Maha Vidyalaya

Sanskrit Syllabus for All under Graduate Courses

(BCA/BBA/B.Com/B.Sc)

L-1 Sanskrit

Semester I

Unit - I भाग: - क

1. Vowels & Consonants
2. Words begin with vowels
3. Words begin with क to ण
4. Words begin with ऩ to ह

Unit - II भाग: - ख

1. Words begin with क to झ with the combination of Vowels.
2. Words begin with ङ to न with the combination of Vowels.
3. Words begin with प to ह with the combination of Vowels.
4. Combined Letters.
5. Simple Sentences.

Unit - III भाग: - ग

1. Lessons from text book 1-6.

Unit - IV भाग: - घ

1. Lessons from text book 7-12.

Unit - V भाग: - ड

1. शब्दरूपाणि

1. देवः	2. मुनिः	3. गुरुः	4. पितृ
5. गो	6. छात्रा	7. मतिः	8. गौरी
9. धेनुः	10. मातृ	11. वनम्	12. अस्मद्
13. युष्मद्	14. तद्	15. एतद्	16. इदम्
17. किम्			

2. धातुरूपाणि (Present tense, Past tense and Future tense) परस्मैपद-आत्मनेपदधातवः

1. भू धातुः 2. पठ् धातुः 3. गम् धातुः

Text Books -

1. Samskrita Siksha - Part I & II

Published by Department of Sanskrit and Indian culture, SCSVMV University (Deemed University), Enathur, Kanchipuram.

Sri Chandrasekharendra Saraswathi Viswa Maha Vidyalaya

Sanskrit Syllabus for All under Graduate Courses

(BCA/BBA/B.Com/B.Sc)

L-1 Sanskrit

Semester I

Unit - I भाग: - क

1. Vowels & Consonants
2. Words begin with vowels
3. Words begin with क to ण
4. Words begin with ञ to ह

Unit - II भाग: - ख

1. Words begin with क to झ with the combination of Vowels.
2. Words begin with ङ to न with the combination of Vowels.
3. Words begin with प to ह with the combination of Vowels.
4. Combined Letters.
5. Simple Sentences.

Unit - III भाग: - ग

1. Lessons from text book 1-6.

Unit - IV भाग: - घ

1. Lessons from text book 7-12.

Unit - V भाग: - ड

1. शब्दरूपाणि

1. देवः	2. मुनिः	3. गुरुः	4. पितृ
5. गो	6. छात्रा	7. मतिः	8. गौरी
9. धेनुः	10. मातृ	11. वनम्	12. अस्मद्
13. युष्मद्	14. तद्	15. एतद्	16. इदम्
17. किम्			

2. धातुरूपाणि (Present tense, Past tense and Future tense) परस्मैपद-आत्मनेपदधातवः

1. भू धातुः 2. पठ् धातुः 3. गम् धातुः

Text Books -

1. Samskrita Siksha - Part I & II

Published by Department of Sanskrit and Indian culture, SCSVMV University (Deemed University), Enathur, Kanchipuram.

S. Eshwangan
B.Com.

PREFACE

This book is made for the beginners who do not have any knowledge of Sanskrit and Devanagari Script. If a person goes through the book he may be able to read any kind of words. We have provided the meaning of the words also in English and Tamil. People may be more familiar with the words and its meaning at the time when they develop their writing skill. Later on we will give our attention to the application of the word. At that time such knowledge of words may be very useful. Sentence making is not felt necessary at this level.

AUTHOR



अ	आ	इ	ई
a	aa	i	ee
अ	आ	इ	ई

उ	ऊ	ऋ	ॠ
u	oo	ri	ree
उ	ऊ	ऋ	ॠ

लृ	ए	ऐ
lru	e	ai
लृ	ए	ऐ

ओ	औ	अं	अः
o	au	am	ah
ओ	औ	अं	अः

क	ख	ग	घ	ङ
ka	kha	ga	gha	N ¹
क	ख	ग	घ	ङ

च	छ	ज	झ	ञ
cha	chha	ja	jha	N ²
च	छ	ज	झ	ञ

ट	ठ	ड	ढ	ण
Ta	Tha	Da	Dha	na
ट	ठ	ड	ढ	ण

त	थ	द	ध	न
ta	tha	da	dha	Na
त	थ	द	ध	न

प	फ	ब	भ	म
pa	pha	ba	bha	ma
प	फ	ब	भ	म

य	र	ल	व
ya	ra	la	va
य	र	ल	व

श	ष	स	ह
sha	shha	sa	ha
श	ष	स	ह

क का कि की कु कू कृ के कै को कौ कं कः
ख खा खि खी खु खू खृ खे खै खो खौ खं खः
ग गा गि गी गु गू गृ गे गै गो गौ गं गः
घ घा घि घी घु घू घृ घे घै घो घौ घं घः
ङ डा डि डी डु डू डृ डे डै डो डौ डं डः

च चा चि ची चु चू चृ चे चै चो चौ चं चः
छ छा छि छी छु छू छृ छे छै छो छौ छं छः
ज जा जि जी जु जू जृ जे जै जो जौ जं जः
झ झा झि झी झु झू झृ जे झै झो झौ झं झः
ञ जा ञि जी जु ञू ञृ जे ञै जो जौ जं ञः

ट टा टि टी टु टू टृ टे टै टो टौ टं टः
ठ ठा ठि ठी ठु ठू ठृ ठे ठै ठो ठौ ठं ठः
ड डा डि दी डु डू डृ डे डै डो डौ डं डः
ढ ढा ढि ढी ढु ढू ढृ ढे ढै ढो ढौ ढं ढः
ण णा णि णी णु णू णृ णे णै णो णौ णं णः

त ता ति ती तु तू तृ ते तै तो तौ तं तः
थ था थि थी थु थू थृ थे थै थो थौ थं थः
द दा दि दी दु दू दृ दे दै दो दौ दं दः
ध धा धि धी धु धू धृ धे धै धो धौ धं धः
न ना नि नी नु नू नृ ने नै नो नौ नं नः

प पा पि पी पु पू पृ पे पै पो पौ पं पः
फ फा फि फी फु फू फृ फे फै फो फौ फं फः
ब वा वि वी बु वू वृ वे वै वो वौ वं वः
भ भा भि भी भु भू भृ भे भै भो भौ भं भः
म मा मि मी मु मू मृ मे मै मो मौ मं मः

य या यि यी यु यू यृ ये यै यो यौ यं यः
र रा रि री रु रू रृ रे रै रो रौ रं रः
ल ला लि ली लु लू लृ ले लै लो लौ लं लः
व वा वि वी वु वू वृ वे वै वो वौ वं वः

श शा शि शी शु शू शृ शे शै शो शौ शं शः
ष पा पि पी पु पू पृ पे पै पो पौ पं पः
स सा सि सी सु सू सृ से सै सो सौ सं सः
ह हा हि ही हु हू हृ हे है हो हौ हं हः



अज :	ajah Goat	अज :
अध :	Adhah Below	अध :
आरि :	arih Enemy	आरि :
अनल :	Analah Fire	अनल :
अनिल :	Anilah Wind	अनिल :
अधिप :	Adhipah Master	अधिप :
अजगर :	Ajagarah Python	अजगर :
अतिथि :	Atithih Guest	अतिथि :

आ aa आ

आग ॥	aagah Sin	ஆக ¹ : பாவம்
आदि ॥	aadih Beginning	ஆதி ¹ : முதல்
आधि ॥	aadhih Disease	ஆதி ¹ : நோய்
आभा	aabha Splendour	ஆபா ¹ ஒளி
आशा	aashaa Hope	ஆஸா ² விருப்பம்
आकाश ॥	aakaashah Sky	ஆகாஸ ² : வானம்
आपणम्	aapanam Bazar	ஆபணம் கடை
आसनम्	aasanam Seat	ஆஸனம் இருக்கை

इ i इ

इदम्	idam This	இத ¹ ம் இது
इभ ॥	ibhah Elephant	இப் ¹ : ஆஸ்பாசை
इपु ॥	ishhuh Arrow	இஷ ¹ : அம்பு
इक्षु ॥	ikshhuh Sugarcane	இக்ஷ ¹ : கரும்பு
इच्छा	Ichchhaa Wish	இச்சா ¹ விருப்பம்
इन्द्र ॥	Indrah Lord Indra	இந்த் ¹ : இந்திரன்
इदानीम्	Idaneem Now	இதா ¹ னீம் இப்பொழுது
इतिहास ॥	Itihaasah History	இதிஹாஸ: வரலாறு

ई ee ऋ

ईशः	eeshah Lord Siva	ஈஸ் ² : சிவன்
ईहा	eehaa Action	ஈஹா விருப்பம்
ईषत्	eeshhat A little	ஈஷத் சிறிது
ईश्वरः	eeshwarah God	ஈஸ் ² வர: ஆண்டவன்
ईक्षणम्	eekshhana m Seeing	ஈக்ஷணம் பார்த்தல்
ईर्ष्या	eershyaa Envy	ஈர்ஷ்யா பொறாமை
ईतिः	eethih Calamity	ஈதி: இயற்கை
ईषा	eeshha Desire	ஈஷா ஏர்க்கால்

उ u ए

उमा	uma Wife of siva	உமா பார்வதி
उषा	ushhaa Down	உஷா விடியற்காலை
उदयः	udayah Sunrise	உத ³ ய உதித்தல்
उपरि	upari Above	உபரி மேலே
उपायः	upaayah Means	உபாய உபாயம்
उलूकः	ulookah Owl	உலூக: ஆந்தை
उदकम्	udakam Water	உத ³ கம் தண்ணீர்
उत्तरम्	uttaram Answer	உத்தரம் பதில்

ஊரு :	ooruh Thigh	ஊரு: தொடை
ஊன :	oonah Deficient	ஊன: குறைவான
ஊஹ :	oohah Guess	ஊஹ: ஊகித்தல்
ஊத :	oodhah Udder	ஊத: பசுவின் மடி
ஊர்மி :	oormih Wave	ஊர்மி: அலை
ஊஷ்மா	ooshmaa Heat	ஊஷ்மா குடு
ஊபர :	ooshharah Barren	ஊபர: உவர்மண்
ஊர்வம்	oordhvam Above	ஊர்வம் குமலே

஋ஜு :	rijuh Straight	஋ஜு: நேர்மையான
஋தம்	ritam Right	஋தம் கரியான
஋தே	rite Without	஋தே தவிர
஋ணம்	rinam Debt	஋ணம் கடன்
஋த்தி :	riddhih Growth	஋த்தி: வளர்ச்சி
஋பி :	rishhih Seer	஋பி: ஋பி
஋க்ஷ :	rikshah Bear	஋க்ஷ: கரடி
஋பஹ :	rishhabhah Bull	஋பஹ: எருது

ऋ ree ரீ

श्वसू ः	shvasreeh To sisters	ஸ்2ஸ்ரீ ஸகோதரிகளை
भ्रातृन्	bhratreen To brothers	ப் ⁴ ராத்ரீ ஸகோதரர்களை
दातृन्	Datreen To givers	தாத்ரீ கொடுப்பவர்களை

लृ lri ல்ரீ

क्लृप्तम्	klriptam Imaginated	க்ல்ரீப்தம் கற்பனையான
-----------	------------------------	--------------------------

ए e ஏ

एक ः	ekah One	ஏக ஒன்று
एष ः	eshhah This	ஏஷ இவன்
एध ः	edhah Fuel	ஏத ஏரிபொருள்
एधा	edhaa Happiness	ஏதா மகிழ்ச்சி
एजन्म	ejanam Shaking	ஏஜன்ம் நடுக்கம்
एला	elaa Cardamom	ஏலா ஏலம்
एकदा	ekadaa Once	ஏகதா ஒரு தடவை
एषा	eshhaa This	ஏஷா இவள்

ऐ ai ஐ

ओ o औ

ऐणः	ainah Skin of deer	ஐணை மான்
ऐलः	ailah Son of ila	ஐலை இலனின் பிள்ளை
ऐनसम्	ainasam Sin	ஐனஸம் பாவம்
ऐन्द्रम्	aindram Related to indra	ஐந்த் ³ ரம் இந்த்ரனுடன் தொடர்புள்ள
ऐरावतः	airaavatah Elephant of indra	ஐராவதஃ இந்த்ரனின் யானை
ऐश्वर्यम्	aishhvaryam Sovereignty	ஐஸ் ² வர்யம் செல்வச்செழிப்பு
ऐहिकः	aihikah of this world	ஐஹிகஃ உலகியலான

आंकः	okah House	ஔகஃ புகலிடம்
आधः	odhah Stream	ஔதஃ நீரோட்டம்
आजः	ojah Strength	ஔஜஃ பலம்
आतुः	otuh Cat	ஔதுஃ பூனை
आदनः	odanah Cooked rice	ஔத் ³ னஃ சோறு
आष्टः	oshhthah Lip	ஔஷ்டஃ உதடு
आषः	oshhah Heat	ஔஷஃ குடு
आषधी	oshhadhee Herb	ஔஷத் ³ முலிகை

औ au ஓள

और्वः	aurvah Submarine fire	ஓளர்வ கடல் நெருப்பு
औरसः	aurasah Legitimate son	ஓளரஸ தன்வயிற்றுப்பிள்ளை
औषधम्	aushhadham Medicine	ஓளஷத ¹ ம் மருந்து
औपायिकम्	aupaayikam Proper	ஓளபாயிகம் தக்க
औदनिकः	audanikah Cook	ஓளத ³ னிகம் சமையல்காரன்
औदार्यम्	audaaryam Generosity	ஓளதா ¹ ர்யம் தாராள மனப்பான்மை
औचित्यम्	auchityam Aptness	ஓளசித்யம் உகந்த
औत्तरम्	auttaram Northern	ஓளத்தரம் வடக்கத்திய

अं am அம்

अंहः	amhah Sin	அம்ஹம் பாவம்
अंशः	amshah Part	அம்ஸ ² பகுதி
अंशुः	amshuh Rays	அம்ஸ ² கதிர்
अंशुकः	amshukah Cloth	அம்ஸ ² க துணி

अः ah அஹ

रामः	raamah Rama	ராம ராமன்
देवः	devah God	தேவ கடவுள்

க ka க

ख kha க²

कट ः	kaTah Mat	கட: பாய்
कथा	kathaa Story	கதா ² கதை
कपि ः	kapih Monkey	கபி: குரங்கு
कर ः	karah Hand	கர: கை
कदली	kadalee Banana	குத ³ லீ வாழை
कमलम्	kamalam Lotus	கமலம் தாமரை
कच्छप ः	kachchhaph Tortoise	கச்ச ² ப: ஆமை
कन्दुकम्	kandukam Ball	கந்து ³ கம் பந்து

खग ः	khagah Bird	க ² க ³ : பறவை
खर ः	kharah Ass	க ² ர: கழுதை
खल ः	khalah Wicked	க ² ல: தீயவன்
खुरम्	khuram Hoof	க ² ரம் குளம்பு
खट्वा	khaTvaa Cot	க ² ட்வா கட்டில்
खण्ड ः	khaNdah Piece	க ² ண்ட ³ : துண்டு
खनित्रम्	khanitram Spade	க ² னித்ரம் மண்வெட்டி
खर्जूर ः	kharjoorah Date	க ² ர்ஜூர: பேரிச்சை

ग ga क³

गज ००	gajah Elephant	க ³ ஜ யானை
गद ००	gadah Desease	க ³ த ³ ஃ நோய்
गण ००	gaNah Collection	க ³ ணை குழு
गणेश ००	gaNeshah Lord ganesh	க ³ ணேஸ ² ஃ விநாயகன்
गणितम्	gaNitam Maths	க ³ ணிதம் கணக்கு
गणना	gaNanaa Counting	க ³ ணநா எண்ணிக்கை
गन्ध ००	gandhah Smell	க ³ ந்த ⁴ ஃ மணம்
गभीर ००	gabheerah Deep	க ³ பீ ⁴ ர ஆழம்

घ gha क⁴

घट ००	ghaTah Pot	க ⁴ ட பாணை
घटा	ghaTaa Fleet of elephant	க ⁴ டா யானைக்கூட்டம்
घन ००	ghanah Cloud	க ⁴ ள மேகம்
घटना	ghaTanaa Occuring	க ⁴ டனா நேர்தல்
घट्ट ००	ghaTTah River ghat	க ⁴ ட்ட படித்துறை
घर्म ००	gharmah Heat	க ⁴ ர்ம உஷ்ணம்
जघनम्	Jaghanam Part below the belly	ஜக ⁴ னம் இடுப்பிழுக்கு
घनसार ००	ghanasaarah Camphor	க ⁴ னஸா ⁴ கற்பூரம்

ङ N¹ ङ

कङकणम्	kaN ¹ kaNam Bangle	கங்கணம் வளையல்
प्राङ्गणम्	praN ¹ gaNam Courtyard	ப்ராங்க ³ ணம் முற்றம்
अङ्गना	aN ¹ ganaa Lady	அங்க ³ னா பெண்
सङ्गमः	saN ¹ gamah Meeting	ஸங்க ³ ம சேர்க்கை
शङ्का	shaN ¹ kaa Doubt	ஷ ² ங்கா சந்தேகம்
शङ्खः	shaN ¹ khah Conch	ஷ ² ங்க ² : சங்கு
रङ्गः	raN ¹ gah Color	ரங்க ³ : வர்ணம்
अङ्गम्	aN ¹ gam Body limb	அங்க ³ : உடல் உகுப்பு

च cha ष

चमूः	chamooH Army	சமு: படை
चटकः	chaTakaha Sparrow	சடகா ஊர்க்குருவி
चरणः	charaNah Foot	சரண: கால்
चणकः	chaNakah Chick-pea	சணக: கடலை
चन्द्रः	chandraH The moon	சந்த ³ ரா சந்திரன்
चतुरः	chaturah Clever	சதுர: திறமையுள்ள
चषकः	chashhakah Goblet	சஷக: கோப்பை
चरमः	charamah Last	சரம: கடைசியிலுள்ள

छ chha ५²

छलम्	chhalam	५²லம்
	Fraud	வஞ்சித்தவன்
छविः	chhavih	५²வி:
	Brightness	பிரகாசம்
छत्रम्	chhatram	५²த்ரம்
	Umbrella	குடை
छन्दः	chhandah	५²ந்த³:
	Wish	விருப்பம்
छद्म	chhadma	५²த்ம
	Fraud	ஏமாற்றுதல்
छदिः	chhadih	५²தி³:
	Roof of a carriage	வீட்டுக்கூரை
छदानम्	chhadanam	५²த³னம்
	Covering	மறைத்தல்
छदः	chhadah	५²த³:
	Lid	முடி

ज ja ७

जनः	janah	ஜன:
	Man	மனிதன்
जयः	jayah	ஜய:
	Win	வெற்றி
जलम्	jalam	ஜலம்
	Water	நீர்
जरा	jaraa	ஜா:
	Old age	முதுமை
जटा	jaTaa	ஜடா:
	Twisted hair of the head	சடைமுடி
जडः	jaDah	ஜட³:
	Fool	முட்டாளன்
जनता	janataa	ஜனதா:
	Public	மக்கள்
जननी	jananee	ஜனனி:
	Mother	தாய்

झ jha झ²

ञ N² ञ

झरः	jharah Cascade	झ²रः अरुवि
झषः	jhashhah Fish	झ²षः मीन
झटिति	jhaTiti Quickly	झ²टि²ति உடனே
झझरः	jharjharah A kind of drum	झ²र²झ²रः ஒருவகை மத்தளம்
झञ्झा	jhaN²jha Noise of blowing wind	झ²ञ्झा² காற்றின் ஒலி
निर्झरः	nirjharah Waterfalls	निर्²झ²रः நீர்வீழ்ச்சி
निर्झरिणी	nirjhariNi River	निर्²झ²रिणी ஆறு
झणत्कारः	jhaNatkaarah Jingling sound	झ²णत्कारः சலங்கை ஒலி

चञ्चुः	chaN²chuh Beak	சஞ்சு அலகு
मञ्जरी	maN²jaree Bunch	மஞ்ஜரி கொத்து
वाञ्छा	vaaN²chhaa Wish	வாஞ்சா² விரும்பம்
काञ्ची	kaaN²chee A town	காஞ்சி காஞ்சீபுரம்
काञ्चनम्	kaaN²chanam Gold	காஞ்சனம் தங்கம்
खञ्जः	khaN²jah Lame, Crippled	க²ஞ்ச தொண்டி
रञ्जनम्	raN²janam Painting	ரஞ்ஜனம் வண்ணமிடுதல்
सञ्चयः	saN²chayah Gathering	ஸஞ்சய சேமித்தல்

ट Ta L

कट ००	kaTah Straw mat	கட: பாய்
पट ००	paTah Cloth,Screen	பட: துணி
घट ००	ghaTah Pot	க ⁴ ட: பாணை
भट ००	bhaTah Soldier	ப ⁴ ட: பொர் வீரன்
चटक ००	chaTakah Sparrow	சடக: குருவி
अटवी	aTavi Forest	அடவீ காடு
टङ्क ००	Tankah Axe	டங்க: கோடரி
कपटम्	kapaTam Cheating	கபடம் ஏமாற்றுதல்

ठ Tha L²

शठ ००	shaThah Cheat, Lazy man	ஸ ² ட ² ஏமாற்றுபவன்
हठ ००	haThah Force	ஹ ² ட ² பலவந்தம்
मठम्	maTham Choultry	மட ² ம் மடம்
पाठ ००	paaThah Lesson	பாட ² பாடம்
षष्ठ ००	shhashhThah Sixth	ஷஷ்ட ² ஆறாவது
श्रेष्ठ ००	sreshhThah Best	ஸ் ² ரேஷ்ட ² சிறந்தவன்
ज्येष्ठ ००	jyeshhThah Elder	ஜ்யேஷ்ட ² முத்தவன்
कनिष्ठ ००	kanishhThah Younger	கனிஷ்ட ² இளையவன்

ड Da L³

डमरः	Damarah Fight	L ³ मरः சண்டை
डमरुः	Damaruh Small Drum	L ³ मरु சிறு பறை
डयनम्	Dayanam Flight	L ³ यनम् பறத்தல்
डिम्बः	Dimbah Affray	डि ³ म्ब ³ ः சண்டை
डिम्भकः	Dimbhakah Young Child	डि ³ म्ब ³ कः குழந்தை
डालिमः	Dalimah Pomegranate	L ³ ालिमः மாதுளை
डिण्डिमः	DiNDimah Small drum	डि ³ ण्ण ³ िमः சிறுபறை
डुण्डुभः	DuNDubhah Water snake	डु ³ ण्ण ³ ु ³ भः சண்ணீர்யாம்பு

ढ Dha L⁴

ढक्का	Dhakkaa Large drum	L ⁴ क्का முரசு
आषाढः	aashhaaDhah Fourth month of a lunar year	आ ⁴ षा ⁴ ढः ஆடி
आढकम्	aaDhakam A measure of grain (nearly 32 Kilos)	आ ⁴ ढ ⁴ कम् நெல்லளவு
मूढः	mooDhah Fool	मू ⁴ ढः முடன்
गूढः	gooDhah Hidden	गू ⁴ ढः மறைக்கப்பட்ட
वाढम्	baaDham Certainly	वा ⁴ ढ ⁴ म् பா ⁴ ட ⁴ ம்
रूढः	rooDhah Grown	रू ⁴ ढः உறுதியாக
आरूढः	aarooDhah Mounted upon	आ ⁴ रू ⁴ ढः வளர்ந்த ஏறிய

क्षणम्	kshhaNam A moment's time	கணம் ஒரு கணம்
काण ः	kaaNah One eyed	காணை ஒற்றை கண்
फणा	phaNaa Expanded hood of a serpant	பீணா பாம்பின் படம்
मणि ः	maNih Gem	மணி: ரத்தினம்
चणक ः	chaNakah Chick-pea	சணகை: கடலை
शाण ः	shaaNah Touch-stone	ஸாணை: உரைகல்
आभाषकः	aaBhaaNah Proverb	ஆபாணை: மறமொழி
आपण ः	aapaNah Market	ஆபணை: சந்தை

तट ः	taTah Shore	தட: கரை
तटाग ः	taTaagah Lake, Pond	தடாக்: குளம்
तथा	tathaa So, Thus	ததா: அப்படிய
तदा	tadaa Then	ததா: அப்பொழுது
तनय ः	tanayah Son	தநயை: மகன்
तनु ः	tanuh Body	தநு: உடல்
तप ः	tapah Penance	தட: தவம்
तरु ः	taruh Tree	தரு: மரம்
तर्णि ः	taraNih The Sun	தருணி: சூர்யன்
तरुण ः	taruNah Young man	தருணை: இளைஞன்

थ tha த²

रथ :	rathah Chariot	ருத ² : தேர்
नाथ :	naathah Master	நாத ² : தலைவன்
सार्थक :	sarthakah Fruitful	ஸார்த ² க: பலநூள்ள
अर्थ :	arthah Meaning	அர்த ² : பொருள்
अथ	atha Thereafter	அத ² பிறகு
गायक :	gaayakah Singer	காயக: பாடகன்
कथनम्	kathanam Narration	கத ² நம் வர்ணனை
कुथ :	kuthah Grass called 'kusa'	குத ² : ஒருவகைகப்புல்

द da த³

दधि	dadhi Curd	த ³ த ⁴ : தயிர்
दनुज :	danujah An Asura	த ³ நுஜ: ஒரு அசுரன்
दया	dayaa Pity	த ³ யா கருணை
दहनम्	dahanam Burning	த ³ ஹநம் எரிதல்
दशम :	dashamah Tenth	த ³ ஸ ² ம: பத்தாவது
दम :	damah Discipline	த ³ ம: ஒழுக்கம்
दन्त :	dantah Tooth	த ³ ந்த: பல்
दक्षिण :	dakshhiNah Right	த ³ க்ஷிண: வலது
दण्ड :	daNDah Stick	த ³ ண்ட ³ : கோல்
दयालु :	dayaaluh Kind	த ³ யாலு: இரக்கம்

த⁴ dha த⁴

த ⁴ னம்	dhanam	த ⁴ னம்
த ⁴ நிக	Money	பணம்
த ⁴ நிக :	dhanikah	த ⁴ நிக :
த ⁴ நு	Rich person	பணக்காரன்
த ⁴ நு :	dhanuh	த ⁴ நு :
த ⁴ ரா	Bow	வில்
த ⁴ ரா :	dharaa	த ⁴ ரா
த ⁴ ர்ம	The earth	பூமி
த ⁴ ர்ம :	dharmah	த ⁴ ர்ம :
த ⁴ வல	Virtuous conduct	த ⁴ ர்மம்
த ⁴ வல :	dhavalah	த ⁴ வல :
த ⁴ ரணி	White color	வெண்மை
த ⁴ ரணி :	dharaNih	த ⁴ ரணி :
த ⁴ மனி	Ground, Soil	பூமி
த ⁴ மனி :	dhamanih	த ⁴ மனி :
	An artery	நரம்பு

ந na ந

நக ² ம்	nakham	நக ² ம்
நக ² ம்	Nail	நக ² ம்
நக ³ :	nagah	நக ³ :
நக ³ ம்	Mountain	மலை
நக ³ ம்	nagaram	நக ³ ம்
நக ³ ம்	City, Town	நக ³ ம்
நட :	naTah	நட :
நடிகள்	Actor	நடிகள்
நப ⁴ :	nabhah	நப ⁴ :
ஆகாயம்	Sky	ஆகாயம்
நமனம்	namanam	நமனம்
வணங்குதல்	Bowing down	வணங்குதல்
நயனம்	nayanam	நயனம்
கண்	Eye	கண்
நரகம்	narakam	நரகம்
நரகம்	Hell	நரகம்
நவீன :	naveenah	நவீன :
புதுமையான	New	புதுமையான
நர :	narah	நர :
மனிதன்	Man	மனிதன்

प pa U

पटः	paTah Cloth	பட : துணி
पटुः	paTuh Skilled	படு : திறமையான
पशुः	pashuh Animal	பஸு : விலங்கு
पतिः	pathih Husband	பதி : கணவன்
पक्षः	pakshhah wing	பக்சி : சிறகு
पर्णः	parNah Leaf	பர்ண : இலை
पत्रम्	patram Letter	பத்ரம் கடிதம்
पवनः	pavanah Air	பவன : காற்று

फ pha P²

फणा	phaNaa Expanded hood of a serpent	பீணா பாம்பின் படம்
फलम्	phalam Fruit	பீலம் பழம்
फणिन्	phaNin A snake	பீண பாம்பு
फलक	phalaka Writing plank	பீலக பலகை
खफः	khaphah Phlegm, sputum	கபீம் சளி
रेफः	rephah A letter (र) ra	ரேபீ : 'ர' எழுத்து
सफलः	shaphalah Successful	ஸபீல : வெற்றி
विफल	viphalah Vain, ineffectual	விபீல : தோல்வி

व ba u³

वकः	bakah Crane	புக்க : கொக்கு
वधिरः	badhirah Deaf	புதீர : செவிடு
बलम्	balam Strength	புலம் பலம்
बलिः	balih Tribute	புலி : பலி
बहु	bahu Very much	புஹு நிறைய
बहुमतिः	bahumatih Great value	புஹுமதி : வெகுமதி
बहुलम्	bahulam Many	புஹுலம் நிறைய
बदरी	badaree Jujube	புதீரி இலந்தைப்பழம்

भ bha u⁴

भटः	bhaTah Soldier	புட்ட : வீரன்
भयम्	bhayam Fear	புயம் பயம்
भक्षकः	bhakshhakah One who eats	புக்ஷக : சாப்பிடுபவன்
भगिनी	bhaginee Sister	புகிநீ ஸகோதரி
भवनम्	bhavanam House	புவநம் வீடு
भवानी	bhavaanee Parvati	புவானீ பார்வதி
भवः	bhavah Birth	புவ : பிறப்பு
भवान्	bhavaan You (in respect form)	புவான் தாங்கள்
भगवत्	bhagavat God having supremacy	புகுவத் பேராளுமை
भरतः	bharatah Bharatha (the first emperor)	புரத : புரதராஜா

म ma ம

मठम्	maTham Temple	மட ^{ம்} மடம்
मति ॥	math Mind	மதி : மணம்
मख ॥	makhah Vedic Sacrifice	மக் ^{ம்} : யாகம்
मधु	madhu Sweet	மது ^{ம்} இனிப்பு
मन ॥	manah Mind	மன : மணம்
मयूर ॥	mayoorah Peacock	மயூர : மயில்
मरु ॥	maruh Desert	மரு : பாலைவனம்
मलिन ॥	malinah Dirty	மலின : அழுக்கான

य ya ய

यति ॥	yatih Ascetic	யதி : சன்யாசி
यथा	yathaa As, just as	யதா ^{ம்} எப்படி
यदि	yadi If	யதி ^{ம்} ஒருக்கால்
यम ॥	yamah God of death	யம : யமன்
यक्ष ॥	yakshhah A clan in Devas	யக்ஷ : யக்ஷன்
यज्ञ ॥	yagnah Vedic sacrifice	யஜ்ஞ : யாகம்
यजमान ॥	yajamaanah Master	யஜமான : எஜமானன்
यष्टि ॥	yashhTih Stick	யஷ்டி : கோல்

र ra र

रक्तः	raktah Blood	ரக்த : ரக்தம்
रविः	ravih The sun	ரவி : சூர்யன்
रसः	rasah Juice	ரஸ : சாறு
रवः	ravah Cry	ரவ : அழுகை
रमणी	ramaNee A lovely young woman	ரமணி அழகி
रणः	raNah War	ரண : போர்
रजतम्	rajatam Silver	ரஜதம் வெள்ளி
रजनी	rajanee Night	ரஜனி இரவு

ल la ल

लघु	laghu small	லகு : சிறிய
लता	lataa Creeper	லதா கொடி
ललना	lalanaa Young lady	லலனா யுவதி
ललाटः	lalaaTah Forehead	லலாட : நெற்றி
लयः	layah Destruction	லய : அழிவு
लवणम्	LavaNam Salt	லவணம் உப்பு
लशुनम्	lashunam Garlic	லஸு ² னம் பூண்டு
ललामः	lalaamah Ornament of the forehead	லலாம : நெற்றிச்சுப்பு

व va व

वनम्	vanam Forest	வனம் காடு
वचनम्	vachanam speech	வசனம் வசனம்
वट	vaTah Banyan tree	வட : ஆலமரம்
वधू	vadhoo Bride, Wife	வதூ : மணப்பெண்
वर	varah Boon	வர : வரம்
वराह	varaahah Pig	வராஹ : பன்றி
वृण	varuNah Rain God	வருண : வருணன்
वसुधा	vasudhaa The Earth	வஸுதூ : பூமி
वदनम्	vadanam Face	வதனம் முகம்

श sha श

शकटम्	shakaTam Cart	சு ² கடம் வண்டி
शकुनि	shakunih Vulture	சு ² குனி கழுகு
शट	shaTah Wicked	சு ² ட : ஏமாற்றுபவன்
शतम्	shatam Hundred	சு ² தம் நூறு
शपथम्	shapatham Taking an oath	சு ² பதம் சபதம்
शयनम्	shayanam Lying down	சு ² யனம் படுக்கை
शरीरम्	sareeram Body	சு ² ரீரம் உடல்
शर	sharah Arrow	சு ² ர : அம்பு
शश	shashah Hare	சு ² ஸ் : முயல்

षट्कम्	shhaTkam Aggregate of Six	ஷட்கம் ஆறு கொண்டது
षट्पद ॥	shhaTpadah Honey bee	ஷட்பத ³ : தேநீ
षडभिज्ञ ॥	shhaDbhignyah Buddha	ஷட ³ பி ³ ஜ்ஞ : புத்தர்
षडानन ॥	shhaDaananah God Subramanya	ஷடா ³ னன : முருகன்
षष्टि ॥	shhashhTih Sixty	ஷஷ்டி : அறுபது
षण्ड ॥	shhaNDah Bull	ஷண்ட ³ : காளை
षड्ज ॥	shhaDjah one of the swaras	ஷட் ³ ஜ : ஷட்ஜம்
षष्ठ ॥	shhashhThah Sixth	ஷஷ்ட ² : ஆறாவது

सलिलम्	salilam Water	ஸலிலம் தண்ணீர்
समय ॥	samayah Time	ஸமய : நேரம்
सह	saha With	ஸஹ உடன்
सदनम्	sadanam House	ஸத ³ னம் வீடு
सदा	sadaa Always	ஸதா ³ எப்பொழுதும்
सनातन	sanaatana Pretty old	ஸனாதன பழமையுள்ள
सकलम्	sakalam All, Entire	ஸகலம் எல்லா
सर ॥	sarah Lake	ஸர : ஏரி
सरिता	saritaa River	ஸரிதா ஆறு

ह ha ஹ

हर ०	harah Siva	ஹரி ॥ சிவன்
हरि ०	harih Vishnu	ஹரி ० ஹரி
हलम्	halam Plough	ஹலம் ஏர்
हनु ०	hanuh Chin, jaw	ஹநு ० கண்ணம்
हय ०	hayah Horse	ஹய ॥ குதிரை
हरित ०	haritah Green	ஹரித ॥ பச்சை
हसनम्	hasanam Laughing	ஹஸனம் சிரிப்பு
हरिण ०	hariNah Deer	ஹரிண ॥ மாண்

क k कं

क + अ = क कमलम्	kamalam Lotus	கமலம் தாமரை
क + आ = का काचः	kaachah Glass	காசு கண்ணாடி
क + इ = कि किर्णः	kiraNah Rays	கிரண: கதிர்
क + ई = की कीचकः	keechakah Bamboo	கீசக: முக்கீல்
क + उ = कु कुटी	kutee Cottage	குட குடிசை
क + ऊ = कृ कृपः	koopah Well	கூப கிணறு
क + ऋ = कृ कृपणः	krupaNah Poor	க்ருபண: ஏழை
क + ए = के केशः	keshah Hair	கேசு: முடி
क + ऐ = कै कैलासः	kailaasah Kailasa	கைலாச: கைலாயம்
क + ओ = को कोकिलः	kokilah Cuckoo	கோகில: குயில்
क + औ = कौ कौतुकम्	kautukam Desire	கௌதுகம் விருப்பம்
क + अं = कं कंसः	kamsah A King	கம்சு: கம்ஸன்
क + अः = कः शुकः	shukah Parrot	சுக்: கிளி

ख kh क्²

ख + अ = ख खलः	khalah Wicked man	क ¹ लः தியவன்
ख + आ = खा खात	khaata Dug up	का ² त பள்ளம்
ख + इ = खि खिलः	khilah barren land	खि ¹ लः உவந்திலம்
ख + ई = खी शाखी	shaakhee Tree	शा ² की மரம்
ख + उ = खु खुरः	khurah Hoof	खु ¹ रः குளம்பு
ख + ऊ = खू आखूनाम्	aakhoonaam of mouses	आ ² खूनाम् எலிகளின்
ख + ए = खे खेलः	khelah To play	के ¹ लः விளையாட
ख + ऐ = खै शाखैजनम्	shaakhajana m Growth of branch	शा ² खैजनम् கிளைமீன்
ख + ओ = खो शंखोदकम्	shankhodak am Water in conch	श ² खोकोक சங்குநீர்
ख + औ = खौ आखौ	aakhau In rat	आ ² खौ எலியில்
ख + अं = खं खंडः	khandah Continent	क ² ण्डः கண்டம்
ख + अः = खः सुखः	susakhah Good friend	सु ¹ खः நல்ல நண்பன்

गृ g क्³

गृ + अ = ग गदा	gada Mace	क ³ दा கதாயுதம்
गृ + आ = गा गानम्	gaanam Song	गा ¹ नम् பாடல்
गृ + इ = गि गिरिः	grih Mountain	गि ¹ रिः மலை
गृ + ई = गी गीतम्	geetam Song	गी ¹ तम् பாட்டு
गृ + उ = गु गुरुः	guruh Master	गु ¹ रुः குரு
गृ + ऊ = गू गूढः	guDhah Hidden	गू ¹ ढः மறைக்கப்பட்ட
गृ + ऋ = गृ गृहम्	gruham House	गृ ¹ हम् வீடு
गृ + ए = गे गेहम्	geham House	के ¹ हम् வீடு
गृ + ऐ = गै गैरिक	gairika Mountain born	गै ¹ रिक மலையிற்பிறந்த
गृ + ओ = गो गोलः	golah Round	को ¹ लः உருண்டை
गृ + औ = गौ गौरः	gaurah White color	को ¹ रः வெண்பா
गृ + अं = गं गंगा	gangaa Gangesa	क ³ ण्ण கங்கை
गृ + अः = गः उरगः	uragah Serpant	उ ¹ रः பாம்பு

घ gh कं⁴

घ + अ = घ घटः	ghaTah Pot	கட்டி : பாணை
घ + आ = घा घासः	ghaasah Grass	காசு : பூல்
घ + इ = घि वाग्धितम्	vaagghitam Good for speech	வாக் கிதம் பேச்சுக்கு
घ + ई = घी वाग्धीनः	vaaggheenah Dumb	நல்லது வாக் கீன :
घ + उ = घु घुटिका	guTikaa Tablet	ஊமை குடிக்கா
घ + ऊ = घू घूर्णनं	ghoorNanam Shaking	யாத்திரை கூர்ணனம்
घ + ऋ = घृ घृतम्	ghrutam Ghee	அசைத்தல் கருதம்
घ + ए = घे संघे	sanghe With	நெய் ஸங்கே ⁴
घ + ऐ = घै संघैकत्वम्	sanghaikatvam Unity of Mob	உடன் ஸங்கை ⁴ கதவம்
घ + ओ = घो घोटकः	ghoTakah Horse	சங்க ஒற்றுமை கோடக :
घ + औ = घौ रघौ	raghau In Raghu	குதிரை ரகௌ ⁴
घ + अं = घं घंटा	ghanTaa Bell	ரகுவில் கண்டா
घ + अः = घः अघः	aghah Sin	மணி அக ⁴ பாவம்

च ch ङं

च + अ = च चक्षुः	chakshuh Eye	சக ⁴ : கண்
च + आ = चा चारुः	chaaruh Beautiful	சாரு : அழகான
च + इ = चि चिकुरा	chikurah Hair	சீகூர : முடி
च + ई = ची चीरम्	cheeram Torn cloth	சீர்ம் கீழ்ந்த தூண்
च + उ = चु चुल्लिः	chullih A fire place	கள்ளி : அடுப்பு
च + ऊ = चू चूर्णः	choorNah Powder	குர்ண : பொடி
च + ऋ = चृ	chru	சீரு
च + ए = चे चेतना	chetanaa Sense	சேதனா உணர்வு
च + ऐ = चै चैत्रः	chaitrah 'Chaitra' month	சைத்ர : சீக்திரை
च + ओ = चो चोलः	cholah Chola Country	சோல : சோழ நாடு
च + औ = चौ चौरः	chaurah Thief	சௌ : திடுடன்
च + अं = चं चंचुः	chanchuh Beak	சஞ்சு : அலகு
च + अः = चः वचः	vachah Speech	வச : வசனம்

छ् + अ = छ छवि :	chhavih Brightness	சீவி : ஒளி
छ् + आ = छा छात्र :	chhatrah Student	சாத்திர : மாணவன்
छ् + इ = छि छिद्रम्	chhidram Hole	சித்ரம் துளை
छ् + ई = छी ताच्छील्यम्	taachchheec lyam Like that	தாச்சீல்யம் அதுபோல
छ् + उ = छु छुरिका	chhurikaa Knife	சூரிகா கத்தி
छ् + ऊ = छू तच्छून्यम्	tachchhoo nyam That's nothing	தச்சூன்யம் ஒன்றில்லாதது
छ् + ऋ = छृ तच्छृणोमि	tachchhru Nomi I hear that	தச்ச்ச்சூரோமி அதை
छ् + ए = छे छेदनम्	chhedana m Cutting	கேட்கிறேன் சேத்தீனம் வெட்டுதல்
छ् + ऐ = छै तच्छैत्यम्	tachchhait yam That cold	தச்சைத்த்யம் குளிரானது
छ् + ओ = छो छोटिका	chhoTikaa Snapp	சோடிக்கா சொடக்கு
छ् + औ = छौ तच्छौरिः	tachchhaur ih That Vishnu	தச்ச்சொரி : அந்த விஷ்ணு
छ् + अं = छं तच्छंकरः	tachchhan karah That Siva	தச்ச்சங்கர : அந்த சிவன்
छ् + अः = छः गुच्छः	guchchhah Bunch	குச்சு : கொத்து

ज् + अ = ज जननी	jananee Mother	ஜனனி தாய்
ज् + आ = जा जाया	jayaa Wife	ஜாயா மனைவி
ज् + इ = जि जिह्वा	jihvaa Tongue	ஜிஹ்வா நாக்கு
ज् + ई = जी जीवः	jeevah Soul	ஜீவ : உயிர்
ज् + उ = जु जुगुप्सा	jugupsaa Dislike	ஜூகுப்ஸா வெறுப்பு
ज् + ऊ = जू खजूरः	kharjoorah Date	கர்ஜூர் : மேசீச்சை
ज् + ऋ = जृ जृम्भा	jrumbhaa Yawning	ஜூம்ப்ஹா கொட்டை
ज् + ए = जे जेता	jetaa One who has won	ஜேதா வென்றவர்
ज् + ऐ = जै जैत्रम्	jaitram Victory	ஜைத்ரம் வெற்றி
ज् + ओ = जो जोषम्	joshham Silently	ஜோஷம் மௌனமாக
ज् + औ = जौ गजौ	ghajau Two elephants	கஜௌ இரு யானைகள்
ज् + अं = जं जंगमः	jangamah Movable thing	ஜங்கம் : அசையு பொருள்
ज् + अः = जः सज्जः	sajjah Being ready	சஜ்ஜ : தயாராகவுள்ள

झ jh झं

झ + अ = झ झप :	jhashhah Fish	झ'ल மீன்
झ + आ = झा झझा	jhajjhaa Sound of pouring rain	झ'झं மழையின் சத்தம்
झ + इ = झि झिण्टा	jhiNTee A shrub	झि'ण्ट முலிகை
झ + ई = झी झीरुका	jheerukaa A cricket	झी'रुका ஒரு விளையாட்டு ஐசி
झ + उ = झु	jhu	झु'नी :
झ + ऊ = झूणि :	jhooNih A kind of nut	झू'नि ஒரு விதை
झ + ऋ = झृ	jhru	झृ'ण्ट
झ + ए = झे	jhe	झे'
झ + ऐ = झै	jhai	झै'
झ + ओ = झो झोट :	jhodah Betel nut tree	झो'ट பாக்கு மரம்
झ + औ = झाँ	jhau	झो'ण्ट
झ + अं = झं	jhan	झं'ण्ट
झ + अः = झः	jhah	झं'ण्ट

द T दं

द + अ = द अटवी	aTavee Forest	அடவி காடு
द + आ = दा कटाहः	kaTaahah Frying pan	கடாஹ் சட்டி
द + इ = दि झटिति	jhaTiti Quickiy	ஐடி உடனடியாக
द + ई = टी टीका	Teekaa Commentary	டீகா கருத்துரை
द + उ = दु पदुः	paTuh Skilled	படு திறமையுள்ள
द + ऊ = दू कट्टिः	kaTooktih Harsh word	கட்டுத்தி கடுஞ்சொல்
द + ऋ = दृ कोष्ट	koshhTru Jackal	கோஷ்ட்ரு சூர்
द + ए = टे कटे	kaTe On the mat	கடே பாயில்
द + ऐ = टै जटैकता	jaTaikaTaa Unity of twisted hair	ஐடைகதா ஐடையின் ஒற்றுமை
द + ओ = टो आटोपः	aaTopah Pride	ஆடோப கம்பம்
द + औ = टौ अष्टौ	ashhTau Eight	அஷ்டௌ எட்டு
द + अं = टं टंकारः	Tankaarah Howl	டங்கார ஊரை
द + अः = टः कटः	kaTah Mat	கட பாய்

द Th Ḍ²

द + अ = ठ शठः	shaThah Lazy man	ஸ ² Ḍ ² : சோம்பேறி
द + आ = ठा कुठारः	kuTharah Axe, Spade	குḌ ² ர : கோடரி
द + इ = ठि कठिनः	kaThinah Difficult	கடி ² ன : கடினமான
द + ई = टी षष्ठी	shhashhThee Genitive case of nouns	ஷஷ் ² ஆறாம்
द + उ = टु निष्ठुरः	nishhThurah Hard	வேற்றுமை நிஷ் ² ு ² ர :
द + ऊ = दू सुष्ठूक्तिः	sushhThooktih Good speech	கடினமான ஸ ² ஷ் ² ு ² க்தி
द + ऋ = दृ	Thru	நல்ல பேச்சு Ḍ ² ு
द + ए = टे	The	Ḍ ²
द + ऐ = टै	Thai	ஷḌ ²
द + ओ = ठो	Tho	Ḍோ ²
द + औ = ठौ	Thau	Ḍௌ ²
द + अं = ठं	Tham	Ḍ ² ம்
द + अः = टः कण्ठः	kaNThah Throat	கண்ட : தொண்டை

इ D Ḍ³

इ + अ = ड डमरु	Damaru A small drum	Ḍ ³ மரு : உருக்கை
इ + आ = डा षडाननः	shhaDaananah Lord Subramanya	ஷட ³ ானந : ஆறுமுகக் கடவுள்
इ + इ = डि डिम्बः	Dimbah Uproar	டிம் ³ : கச்சல்
इ + ई = डी डीनम्	Deenam Flight	டிநம் பறத்தல்
इ + उ = डु दुग्दुभः	DuNDubhah Water snake	டு ³ ண் ³ டு ³ சார்பாம்பு
इ + ऊ = दू	Doo	டு ³
इ + ऋ = दृ	Dru	Ḍ ³ ு
इ + ए = टे	De	Ḍே ³
इ + ऐ = टै	Dai	ஷḌ ³
इ + ओ = ठो	Do	Ḍோ ³
इ + औ = ठौ	Dau	Ḍௌ ³
इ + अं = ठं	Dam	Ḍ ³ ம்
इ + अः = डः जडः	jaDah Motionless	ஜ ³ : அசைவற்ற

द Dh ङ्

द + अ = द डक्का	Dhakkaa Large drum	டீக்கா பெரிய மத்தளம்
द + आ = दा वोदा	voDhaa Bearer	வோடா கம்பப்பலன்
द + इ = दि रुदिः	rooDhih Famous	ரூடி : புகழ்
द + ई = दी दुण्डीशः	DhuNDeesihah Lord Ganesha	தீண்டீஸ் : வினாயகர்
द + उ = दु दुण्डिः	DhuNDhih Lord Ganesha	தீண்டி : வினாயகர்
द + ऊ = दू	Dhu	தீ
द + ऋ = दृ	Dhru	டீரு
द + ए = दे दृढेच्छा	druDhechchhaa Strong will	தீருடீச்சா திடமான ஆள்
द + ऐ = दै दृढेपा	druDhaishhaa She is strong	தீருடைஷா அவர்
द + ओ = दौ दृढौः	druDhauruh With strong thigh	தீருடைஷு : திடமான
द + औ = दौ दौकनम्	Dhaukanam Offering	தொடைபுள்ள டென்கநம்
द + अं = दं वाढं	baaDham O.K	பாடம் ஶ்
द + अः = दः वृढः	vruDham Strong	வ்ருட : பலமான

ण N णं

ण + अ = ण गणः	gaNah Flock	கீண : மந்தை
ण + आ = णा गणाधिपः	gaNeadhīpah Leader of a troop	கீணாதிப : படைபயின் தளபதி
ण + इ = णि मणिः	maNih Gem	மணி : இரத்தளம்
ण + ई = णी फणी	phaNee Snake	பீணி பாம்பு
ण + उ = णु रणुः	reNuh Dust	ரேணு : தூசீ
ण + ऊ = णू अपणू	aNoon to atoms	அணு அணுக்களை
ण + ऋ = णृ	Nru	
ण + ए = णं गणेशः	gaNeshah Lord	கீணேஷ : வினாயகர்
ण + ऐ = णै गणैकता	gaNaikatas Unity of troops	கணைகதா குழுக்களின் ஒற்றுமை
ण + ओ = णो हृणोदयः	hooNodayah Rise of 'Huna'	ஹூணோதீய ஹூணர்களின் ஏழுச்சீ
ण + औ = णौ मणौ	maNau In gem	மணை ரத்தினத்தல்
ण + अं = णं पणं	paNam Money	பணம் பணம்
ण + अः = णः शाणः	shaaNah Touch-stone	ஷாண : உரைகல்

त t क्त

त + अ = त तरुः	taruh Tree	தரு : மரம்
त + आ = ता तारा	taaraa Star	தாரா தட்சத்திரம்
त + इ = ति तिलः	tilah Sesamum plant	தில : எள் செடி
त + ई = ती तीक्ष्णः	teekshhNah Sharp	தீக்ஷ்ண : கர்மையுள்ள
त + उ = तु तुला	tulaa Balance	துலா தராச
त + ऊ = तू तूष्णीम्	tooshhNeem Silently	தூஷ்ணீம் மௌனமாக
त + ऋ = तृ तृप्तिः	truptih Satisfaction	த்ருப்தி : திருப்தி
त + ए = ते तेजः	tejah Lustre	தேஜ : ஜோதி
त + ऐ = तै तैलम्	tailam Oil, Benzoin	தைலம் எண்ணெய்
त + ओ = तो तोयम्	toyam Water	தோயம் கண்ணீர்
त + औ = तौ तौ	tau They two	தென அவர் இருவர்
त + अं = तं अवतंसः	avatamsah Garland	அவதம்ஸ : மாலை
त + अः = तः खातः	khaatah Dug up	கா'த : தோண்டப்பட்ட

थ th क्त²

थ + अ = थ अथ	atha Here, Now	அத இப்போது
थ + आ = था कथा	kathaa Story	கதா கதை
थ + इ = थि पथिकः	pathikah Traveller	பதி'க : பயணி
थ + ई = थी स्थीयते	siheeyate Had stayed	ஸ்தீ'யதே இருந்தது
थ + उ = थु पृथुः	pruthuh A king	பு'து : ஒரு ராஜா
थ + ऊ = थू स्थूलम्	sthoolam Large	ஸ்தூ'லம் பருத்த
थ + ऋ = थृ	thru	த்'ரு
थ + ए = थे पाथेयम्	paatheyam Food for a journey	பாதே'யம் பயணச்சாப்பாடு
थ + ऐ = थै स्थैर्यम्	sthairyam Steady	ஸ்தை'ர்யம் திடம்
थ + ओ = थो कथोदयः	kathodayah Beginning of the story	கதோ'த'ய : கதையின் ஆரம்பம்
थ + औ = थौ सारथौ	sarathau In charioteer	ஸார'தோ' தே' ஒட்டுபவரின்
थ + अं = थं इत्थं	itham In this manner	இ'த'தம் இப்படி
थ + अः = थः मन्मथः	manmathah Love God	ம'ந்'மத்' மன்மதன்

द d क्त³

द + अ = द दशम्	dasham Tenth	த'ஸ'ம் பத்தாவது
द + आ = दा दानम्	daanam Charity	தா'னம் கொடை
द + इ = दि दिनम्	dinam Day-time	தி'னம் நாள்
द + ई = दी दीनः	deenah Poor	தீ'ன : ஏழை
द + उ = दु दुर्बलः	durbalah Weak	து'ர்ப'ல : பலகீனமான
द + ऊ = दू दूर्वा	doorvaa Bent Grass	தூ'ர்வா அருகம்பல்
द + ऋ = दृ दृष्टिः	drushhTih Eye sight	த்'ருஷ்டி : பார்வை
द + ए = दे देवता	devataa God	தே'வதா தேவதை
द + ऐ = दै दैत्यः	daityah Demon	ததை'த்ய : அரக்கன்
द + ओ = दो दोहनम्	dohanam Milking	தோ'ஹனம் கறத்தல்
द + औ = दौ दौवारिकः	dauvaarikah Gate keeper	தென'வாரிக : வாயிற் காப்போன்
द + अं = दं दंष्ट्रा	damshhTraa Large tooth	த'ம்ஷ்ட்ரா பெரிய பல்
द + अः = दः जलदः	jaladah Cloud	ஜலத' : மேகம்

ध dh क्त⁴

ध + अ = ध धनम्	dhanam Money	த'னம் பணம்
ध + आ = धा धारा	dhaaraa Running water	தா'ரா நீரோட்டம்
ध + इ = धि व्याधिः	vyaadhih Disease	வ்யாதி' : வியாதி
ध + ई = धी धीरः	dheerah Brave	தீ'ர : தீரன்
ध + उ = धु माधुः	saadhuh Sage	ஸாது' : நல்லவன்
ध + ऊ = धू वधूः	vadhoooh Bride	வது' : மணமகள்
ध + ऋ = धृ धृतिः	dhrutih Holding	த்'ருதி : தாங்குதல்
ध + ए = धे धेनुः	dhenuh Cow	தே'னு : பசு
ध + ऐ = धै धैर्यम्	dhairyam Boldness	ததை'ர்யம் தைர்யம்
ध + ओ = धो धोरणम्	dhoraNam Vehicle	தோ'ரணம் வண்டி
ध + औ = धौ धौतम्	dhautam Washed	தென'தம் துவையத்த
ध + अं = धं सविधं	savidham With	ஸவித'ம் உடன்
ध + अः = धः अधः	adhah Under	அத' : கீழே

न n न्

न + अ = न नरः	narah Man	நர : மனிதன்
न + आ = ना नारी	naaree Woman	நாரீ பெண்
न + इ = नि निशा	nishah Night	நிஷா ² இரவு
न + ई = नी नीरम्	neeram Water	நீரம் நீர்
न + उ = नु नुतिः	nutih Praising	நுதி : பாராட்டு
न + ऊ = नू नूपुरः	noopurah Anklet	நூபு : கொலுசு
न + ऋ = नृ नृपः	nrupah King	ந்ருப : அரசன்
न + ए = ने नेत्रम्	netram Eyes	நேத்ரம் கண்
न + ऐ = नै नैः	naih An offering	நை : நைவேத்தியம்
न + ओ = नो नोदनम्	nodanam A Sound	நோத ¹ னம் ஒரு ஒலி
न + औ = नौ नौका	naukaa Boat	நௌகா படகு
न + अं = नं नन्दः	nandah Happiness	நந்த ¹ : மகிழ்ச்சி
न + अः = नः घनः	ghanah Cloud	க ¹ ந : மேகம்

प p प्

प + अ = प पदमम्	padmam Lotus	பத் ¹ மம் தாமரை
प + आ = पा पाणिः	paaNih Hand	பாணி : கை
प + इ = पि पिकः	pikah Cuckoo	பிக : குயில்
प + ई = पी पीठम्	peeTham Stool	பீட் ¹ ம் பீடம்
प + उ = पु पुरी	puree City	புரீ ஒரு நகரம்
प + ऊ = पू पूर्णः	poorNah Full	பூர்ண : ஒழு
प + ऋ = पृ पृथिवी	pruthivee The Earth	ப்ருதிவீ பூமி
प + ए = पे पेशी	peshee Muscle	பேசீ சதை
प + ऐ = पै पैशाची	paishaachee Devil	பைஷா ¹ சீ பிசாசு
प + ओ = पो पोतः	potah Calf	பொத : கன்று
प + औ = पौ पौरुषम्	paurashham Human effort	பொருஷம் மனித முயற்சி
प + अं = पं पंकः	pankah Mud	பங்க : சேறு
प + अः = पः नृपः	nrupah King	ந்ருப : மன்னன்

फ़ ph ṛ²

फ़ + अ = फ फलम्	phalam Fruit	பீலம் பழம்
फ़ + आ = फा फालः	phaalah Fore head	பாலை : தெற்றி
फ़ + इ = फि गुम्फितम्	gumphitam Woven	கும்பீதம் கோர்க்கப்பட்ட
फ़ + ई = फी काफी	kaaphee Coffee	காபீ காபி
फ़ + उ = फु फुल्लम्	phullam Blossomed	பூல்லம் மலர்ந்த
फ़ + ऊ = फू फूल्कारः	phootkaarah Blowing	பூத்கார : ஊதுதல்
फ़ + ऋ = फृ	phru	பீரு
फ़ + ए = फे फेनः	phenah Foam	பேன : நுரை
फ़ + ऐ = फै	phai	பை
फ़ + ओ = फो फोटः	sphoTah Breaking up	ஸ்போட : வெடித்தல்
फ़ + औ = फौ	phau	பௌ
फ़ + अं = फं	pham	பம்
फ़ + अः = फः कफः	kaphah Flum	கப : சளி

व् b ṛ³

व् + अ = व वल्लम्	halam Strength	பீலம் பலம்
व् + आ = वा वालः	baiah Child, Boy	பால : சிறுவன்
व् + इ = वि विन्दुः	binduh Drop	பிந்து : துளி
व् + ई = वी वीभत्सः	beehtsah Disgust	பீபீத்ஸ : வெறுப்பு
व् + उ = वु बुधः	budhah Planet	புத : புதன்
व् + ऊ = वू ताम्बूलम्	taamboolam Betel leaf	தாம்பூலம் வெற்றிலை
व् + ऋ = वृ वृहत्	bruhat Big	பீருஹத் பெரிய
व् + ए = वं कुबेरः	kuberah God Kubera	குபேர : குபேரன்
व् + ऐ = वै	bat	பை
व् + ओ = वां बोधः	bodhah Knowledge	போத : போதனை
व् + औ = वौ बौद्धः	bauddhah Buddhist	பௌத்த : வளத்தன்
व् + अं = वं बंगः	bangah A place	யங்க : ஒரு இடம்
व् + अः = वः क्षीबः	kshheebah In toxicated	க்சீப : போதையா ல்தளர்ந்த

भ bh ṁ

भ + अ = भ भटः	bhaTah Soldier	பீட: போர்வீரன்
भ + आ = भा भानुः	bhaanuh The sun	பா ^ன னு சூர்யன்
भ + इ = भि भिन्नः	bhinnah Broken	பீ ^{ன்} ன: உடைந்த
भ + ई = भौ भौरुः	bheeruh Afraid	பீ ^{ரு} : பயந்த
भ + उ = भु भुजः	bhujah Fore-arm	பு ^ஜ : புஜம்
भ + ऊ = भू भूषणम्	bhooshhaNam Decoratation	பூ ^ஷ ணம் அலங்காரம்
भ + ऋ = भृ भृगुः	bhruhah Brigu a sage	பு ^{ரு} கு: ஒரு முனிவர்
भ + ए = भे भेदः	bhedah Difference	பே ^த : வித்தியாதம்
भ + ऐ = भै भैरवः	bhairavah Siva	பை ^ர வ: பைரவர்
भ + ओ = भो भोजनम्	bhojanam Eating	போ ^ஜ ணம் உணவு
भ + औ = भौ भौतिकम्	bhautikam Elemental	பௌ ^த ிகம் பூதத்தொடர்
भ + अं = भं भंगः	bhangah Destruction	பு ^{ங்} : பீய்க்: உடைதல்
भ + अः = भः नभः	nabhah Cloud	ந ^ப : கூகாயம்

म् m ṁ

म् + अ = म मग्न	magnah Sunk	ம ^{க்} ன முழங்கி
म् + आ = मा मासः	maasah Month	மா ^ச : மாதம்
म् + इ = मि मिष्टान्म्	mishhTaann am Sweet food	மி ^{ஷ்ட} ானம் இன்பு
म् + ई = मी मीनः	meenah Fish	மீ ^ன : மீன்
म् + उ = मु मुदितः	muditah Happy	மு ^{தி} த: மகிழ்ச்சி
म् + ऊ = मू मूषकः	mooshhakah Rat	மூ ^ஷ க: சூழி
म् + ऋ = मृ मृदुः	mruduh Soft	ம ^{ரு} து: மென்மையான
म् + ए = मे मेघः	meghah Cloud	மே ^{க்} : மேகம்
म् + ऐ = मै मैथुनम्	maithunam Union	மை ^{து} னம் சேர்க்கை
म् + ओ = मो मोक्षः	mokshhah Supreme bliss	மோ ^{க்} : மோகம்
म् + औ = मौ मौनम्	maunam Silence	மௌ ^ன ம் மௌனம்
म् + अं = मं मंत्रम्	mantram Spell	ம ^{ந்} ம் மந்திரம்
म् + अः = मः आश्रमः	aashramah Hermitage	ஆ ^{ஸ்} ம் ஆசிரமம்

य y यं

य + अ = य यति :	yatih Ascetic	यति :
य + आ = या यात्रा	yaatraa Journey	यात्री
य + इ = वि शयितम्	shayitam Having laid	பயணம்
य + ई = यी ग्वीश :	rayeesah Wealthy man	ஸீயிதம்
य + उ = यु युगम्	yugam Yuga	படுத்த
य + ऊ = यू यूथम्	yootham Crowd	ரயீஸ் :
य + ऋ = यू व्यृद्धि :	vyruddhah Poverty	பணக்காரன்
य + ए = ये भयेन	bhayena With fear	யுகம்
य + ऐ = यै मत्यै	matyai To intellect	யுகம்
य + ओ = यो योग :	yogah Joining	யூதம்
य + औ = यौ यौवनम्	yaunam Youth	கூட்டம்
य + अं = यं सायं	saayam Evening	வம்ருத்தி
य + अः = यः यः	yah Who	ஏழ்மை

र r रं

र + अ = र रजतम्	rajatam Silver	ரஜகம்
र + आ = र राजा	raajaa King	வெள்ளி
र + इ = रि रिपुः	ripuh Enemy	ராஜா
र + ई = री रीतिः	reetih Method	ராஜா
र + उ = रु रुचिः	ruchih Taste	ரீபு :
र + ऊ = रू रूपम्	roopam Shape	எதிரி
र + ऋ = रृ	ru	ரீதி :
र + ए = रे रेणुः	reNuh Pollen Grains	முறை
र + ऐ = रै रै	ra: Wealth	ருசி :
र + ओ = रो रोदनम्	rodanam Cry	ருசி
र + औ = रौ रौरवः	raukhah Hell	ரூபம்
र + अं = रं वरं	varam Boon	உருவம்
र + अः = रः शरः	sharah Arrow	ரு

ल् | ळं

ल् + अ = ल लघुः
 ल् + आ = ला लालसा
 ल् + इ = लि लिपिः
 ल् + ई = ली लीला
 ल् + उ = लु दयानुः
 ल् + ऊ = लृ लृनः
 ल् + ऋ = लृ
 ल् + ए = ले लेखः
 ल् + ऐ = लै वलैः
 ल् + ओ = लो लोमशाः
 ल् + औ = लौ लौः
 ल् + अं = लं जलं
 ल् + अः = लः अचलः

laghuh	लघुः
Small	सूक्ष्म
laalasa	लालसा
Greedy	लालक
lipih	लिपिः
Script	लिपि
leela	लीला
Play	लालसा
dayaanu	दयानुः
Kind	दयानुप्राप्त
loonah	लृनः
Cut	लृण
lru	लृ
lekhhah	लेखः
Script	लेख
balah	वलैः
By Soldiers	सैनिक
lomashah	लोमशाः
Sheep	लोमशा
glauh	लौः
Moon	लौ
jalam	जलं
Water	जल
achalah	अचलः
Mountain	अचल

व् | व् ळं

व् + अ = व वचनम्
 व् + आ = वा वारिः
 व् + इ = वि विपाकः
 व् + ई = वी वीर्यम्
 व् + उ = वु आवृत्तः
 व् + ऊ = वृ तावृचतुः
 व् + ऋ = वृ वृक्षः
 व् + ए = वे वेदः
 व् + ऐ = वै वैरः
 व् + ओ = वो वांटा
 व् + औ = वौ गावौ
 व् + अं = वं सर्वं
 व् + अः = वः शवः

vachav	वचनम्
Word	वचन
vaari	वारिः
Water	वारि
vipaakah	विपाकः
Cooking	विपाक
veeryam	वीर्यम्
Strength	वीर्य
avuktah	आवृत्तः
Brother in Law	आवृत्त
taavoochatuh	तावृचतुः
They spoke	तावृचतु
vrukshhah	वृक्षः
Tree	वृक्ष
vedah	वेदः
Veda	वेद
vairah	वैरः
Enmity	वैर
vodhaa	वांटा
Bearer	वांटा
gaavau	गावौ
Two cows	गावौ
sarvam	सर्वम्
Everything	सर्वम्
shavah	शवः
Dead body	शव

श sh ஸ்²

श + अ = श शकटम्	shakaTam Cart	ஸ்கடம் வண்டி
श + आ = शा शाकः	shaakah Vegetable	ஸாக : காய்கறி
श + इ = शि शिक्षा	shikshaa Studies	ஸிக்ஷா சிக்ஷை
श + ई = शी शीघ्रम्	sheeghram Soon	ஸீக்ஷம் சீக்கிரம்
श + उ = शु शुचिः	shuchih Pure	ஸூசி : சுத்தமான
श + ऊ = शू शून्यम्	shoonyam Zero	ஸூன்யம் சூன்யம்
श + ऋ = शृ शृङ्गम्	shrungam Horn	ஸ்சூங்கம் கொம்பு
श + ए = शे शेखरः	shekharah Crown	ஸேக்ஷர : கிரிடம்
श + ऐ = शै शैलः	shailah Mountain	ஸைல : மலை
श + ओ = शो शोकः	shokah Sorrow	ஸோக் : சோகம்
श + औ = शौ शौर्यम्	shauryam Braveness	ஸௌர்யம் சூரத்தனம்
श + अं = शं शंका	shankaa Doubt	ஸங்கா சந்தேகம்
श + अः = शः श्रीशः	shreeshah Lord Vishnu	ஸ்ரீஸ : விஷ்ணு

ष shh ष

ष + अ = ष षट्	shhaT Six	ஷட் ஆறு
ष + आ = पा कपायः	kashhayah Decoction	கஷாய : கஷாயம்
ष + इ = पि ऋषिः	rushhih Sage	ருஷி : ரிஷி
ष + ई = पी ऋषीकम्	rushheekam Name of a Mountain	ருஷீகம் ஒரு மலை
ष + उ = षु इषुः	ishhuh Arrow	இஷு : அம்பு
ष + ऊ = षू निषूदनम्	nishhoodanam Killing	நிஷூதனம் கொல்லுதல்
ष + ऋ = षृ	shhru	ஷ்சூ
ष + ए = षे निषेवनम्	nishhevanam Using	நிஷேவனம் பயன்படுத்து
ष + ऐ = षै मृषैव	mrushhaiva In vain	ம்ருஷைவ விரிசாக
ष + ओ = षो पुरुषोत्तमः	purushhotama h Supreme being	புருஷோத்தம புருஷோத்தம ன்
ष + औ = षौ त्विषौ	tvishhau Two lustres	த்விஷௌ இரு ஒளிகள்
ष + अं = षं विषम्	vishham Poison	விஷம் நஞ்சு
ष + अः = षः पुरुषः	purushhah Person	புருஷ : மனிதன்

स s ஸ்

स + अ = स सलिलम्	saltlam Water	சலிலம் நீர்
स + आ = सा मारः	saarah Essence	ஸார : சாறு
स + इ = सि सित	sita White	ஸித வெண்மையுள்ள
स + ई = सी सीमा	seemaa Boundary	ஸீமா எல்லை
स + उ = सु सुखम्	sukham Happiness	ஸுகம் சுகம்
स + ऊ = सू सूत्रम्	sootram Brief statement	ஸூத்ரம் குத்திரம்
स + ऋ = सृ सृष्टिः	srushhTih Creation	ஸ்ருஷ்டி : சிருஷ்டி
स + ए = से सेतुः	setuh Bridge	ஸேது : பாலம்
स + ऐ = सै सैनिकः	sainikah Soldier	ஸைனிக : படைவீரன்
स + ओ = सो सोमः	somah The moon	ஸோம : சந்திரன்
स + औ = सौ सौधम्	saudham A mansion	ஸௌதம் மாளிகை
स + अं = सं संस्था	sansthaa A royal decree	ஸம்ஸ்தா அரசாணை
स + अः = सः सः	sah He	ஸ : அவன்

ह h ँ

ह + अ = ह हयः	hayah Horse	ஹய : குதிரை
ह + आ = हा हानिः	haanih Damage	ஹானி : அழிவு
ह + इ = हि हितम्	hitam Beneficial	ஹிதம் நன்மை
ह + ई = ही हीनः	heenah Low man	ஹீன : நீசன்
ह + उ = हु हुतभुज	hurabhuj Fire	ஹுதபுஜ அகனி
ह + ऊ = हू हूतिः	hootih Calling	ஹூதி : அழைத்தல்
ह + ऋ = हृ हृदयम्	hrudayam Heart	ஹ்ருதயம் இதயம்
ह + ए = हे हेला	helaa Disregard	ஹேலா அவமதித்தல்
ह + ऐ = है हैम	haima Cold	ஹைம குளிர்காலத்திய
ह + ओ = हो होमः	homah Religious oblation	ஹோம : ஹோமம்
ह + औ = हौ जहौ	jahau Had Sacrificed	ஹௌ தியாகம் செய்தல்
ह + अं = हं हंसः	hamsah Swan	ஹம்ஸ : அன்ஸம்
ह + अः = हः अहः	ahah Day time	ஹ : பகல்

क् + क = क्क चिकणम्

chikkaNam

சிக் கணம்

Greasy

வழுப்புள்ளி

क् + त = क्त रक्तम्

raktam

ரக்தம்

Blood

ரத்தம்

क् + न = क्क फलिकनी

phalikai

பலிக் கனி

Old lady

கிழவி

क् + म = क्क रुक्म

rukma

ரூக்ம

Gold

தங்கம்

क् + य = क्य वाक्यम्

vaakyam

வாக்யம்

Sentence

வாக்கியம்

क् + र = क्क क्रमः

kramah

க்ரம :

In Order

முறையாக

क् + ल = क्ल क्लमः

klamah

க்லம :

Exhaustion

சோர்வு

क् + व = क्व क्व

kva

க்வ

where

எங்கே

क् + प = क्क्ष क्षणम्

kshhaNam

க்ஷணம்

A moments time

கணம்

क् + स = क्स विश्वक्सेनः

vishvakseenah

விஷ்வக்ஸேன :

A name

விஷ்வக்ஸேனர்

ख + य = ख्य ख्यातिः

khyaatih

க்யாதி :

Fame

புகழ்

ग + ग = ग्ग दृग्गणितम्

driggNitam

தரக் கணிதம்

Part of jyothisha

ஜோதிடத்தின்

ஒரு வகை

ग + घ = ग्घ वाग्घरिः

vaaggharih

வாக் கரி :

Orator

பேச்சாளர்

ग + न = ग्न लग्नम्

lagnam

லக் ணம்

Attached

இணைந்து

ग + म = ग्म वाग्मी

vaagmee

வாக் மீ

eloquent

நன்கு பேசுகிற

ग + य = ग्य भाग्यम्

bhaagyam

பாக்யம்

Fate

பாக்யம்

ग + र = ग उग्रः

ugrah

உக்ர

Terrific

பயங்கரம்

ग + ल = ग्ल ग्लानिः

glaanih

க்லானி :

Decay

குன்றிப்போதல்

ग + व = ग्व सुव्री

sragvee

ஸரக் வீ

One who wears

மாலை

Gariand

தணிந்தவன்

घ + न = घ्न विघ्नः

vighnah

விக் ண :

Obstacle

தடை

घ + र = घ्न व्याघ्रः

vyaaghras

வ்யாக் ற :

Tiger

பூர்

इ + क = इक अङ्कः

ankah

அங்க :

Lap

மடி

इ + ख = इख शङ्खः

shankah

ஷங்க் :

conch

சங்கு

इ + ग = इग अङ्गः

angah

அங்க் :

Organ

உடறுறுப்பு

इ + घ = इघ जङ्घा

janghaa

ஜங்கா

Shank

கெண்டைக்கால்

इ + क्ष = इक्ष ध्वाङ्क्षः

dhvaaN'kshah

த்வாங்க் :

Crow

காகம்

च + च = च्च उच्चैः

uchchah

உச்சை :

Loudly

உரக்க

च + ज = च्ज याच्ना

yaachN'aa

யாச் ஞ

Begging

பிச்சை

எடுத்தல்

च + म = च वचि	vaachmi	வாசும்
च + य = च वाच्यम्	vaachyam	வாசும்
छ + र = छ कृच्छ्रम्	kruchchhram	கேள்வியுறு
छ + व = छ्व उच्छ्वासः	uchchhvaasah	கஞ்சும்
ज + ज = ज मञ्जनः	ajjanah	உச்சுவாசம்
ज + झ = ज उज्जितम्	ajhitam	சுஜ்ஜனம்
ज + य = ज राज्यम्	raajyam	உஜ்ஜிதம்
ज + र = ज वज्रम्	vajram	நாட்டம்
ज + व = ज ज्वरः	jvarah	ராஜ்யம்
झ + य = झ झंझ्यः	ghanjyah	ராஜ்யம்
ञ + च = ञ मञ्चिका	saN'chikaa	வஜ்ரம்
ञ + ज = ञ खञ्जः	khaN'jah	சுவரம்
ञ + झ = ञ झञ्जा	jhaN'jhaa	ஜ்வரம்

वाचि
 பேசுதல்
 வாசும்
 சொல்லு
 கேள்வியுறு
 கஞ்சும்
 உச்சுவாசம்
 சுஜ்ஜனம்
 உஜ்ஜிதம்
 நாட்டம்
 ராஜ்யம்
 ராஜ்யம்
 வஜ்ரம்
 சுவரம்
 ஜ்வரம்
 ஜ்வரம்
 ஜம்ஜ்யம்
 ழுயர்
 மஞ்சிக்கா
 ஞ
 க'ஜ்ஜ
 ஞாண்டி
 ஜ'ஜ்ஜ
 கண்கண்
 சித்தம்

द + य = दृ विद्वद्विः	viTkhadirah	விடக்கடி
द + च = दृच विद्वचः	viTcharah	விடக்கடி
द + र = दृ अट्टः	aTTah	அட்ட
द + य = दृय नाट्यम्	naaTyam	நாட்டம்
द + र = दृ राष्ट्रम्	raashhTram	நாட்டம்
द + व = दृव खट्वा	khaTvaa	கட்டை
द + स = दृस लिट्सु	liTsu	லிட்டு
द + य = दृय शाठ्यम्	shaaThyam	சாத்தியம்
इ + ड = इड उड्डयनं	uDDaynam	உட்டையன்
इ + म = इम कुडमल	kuDmala	குடமல
इ + य = इय जाड्यम्	jaaDyam	ஜாடியம்
द + य = दृय आड्यः	aaDyah	ஆடியன்
द + र = दृ मेद्रः	meDrah	மேட்ரம்

ण + ट = ण्ट कण्टक :	kaNTakah Thorn	கண்டுக : முள்
ण + ठ = ण्ठ कण्ठ :	kaNThah Throat	கண்டி : தொண்டை
ण + ड = ण्ड चण्ड :	chaNDah Terrible	சண்டி : பயங்கரமான
ण + ढ = ण्ह शण्ड :	shaNDhah Eunuch	ஸாண்டி : சலி
ण + ण = ण्ण क्षुण्णम्	kshhuNNam Crushed	கண்ணம் பொடியான
ण + य = ण्य पुण्यम्	puNyam Virtue	புண்யம் புண்ணியம்
ण + व = ण्व कण्व :	kaNvah A sage	கண்வ : முனிவர்
त् + क = त्क उत्कण्ठा	utkaNThaa Eagerness	உத்கண்டி : ஆவல்
त् + ख = त्ख उत्खननम्	utkhananam Digging	உத்க்னனம் தோண்டுகல்
त् + त = त्त आयत्तम्	ayattani Getting ready	ஆயத்தம் தயாராக
त् + थ = त्थ उत्थानम्	utthaanam Getting up	உத்தானம் எழுதல்
त् + न = त्त यत्न :	yatnah Effort	யத்ன : முயற்சி
त् + प = त्त उत्पत्ति :	utpattih Production	உற்பத்தி : உற்பத்தி

त् + फ = त्तफ उत्फुल्ल :	utphullah Blossomed	உத்புல்ல : மாபந்த
त् + म = त्तम आत्मा	aatmaa Inner Soul	ஆத்மா ஆத்மா
त् + य = त्तय अमात्य :	amaatyah Minister	அமாத்ய : மந்திரி
त् + र = त्तपत्रम्	patram Letter	பத்ரம் கடிதம்
त् + व = त्तव त्वम्	tvam You	த்வம் நீ
त् + स = त्तस उत्सव :	utsavah Festival	உத்ஸவ : விழா
द् + य = द्तथ्य तथ्यम्	tathyam Truth	தத்யம் உண்மை
द् + ग = द्तग मुद्गा :	mudgah Green gram	முத்க் : பச்சை மயிடு
द् + घ = द्तघ उपोद्घात :	upodghaatah Preface	உபோத்காத் : முன்னுரை
द् + द = द्तद उद्दण्ड :	uddaNDah Unbound	உத்தண்டி : கட்டற்ற
द् + ध = द्तध वृद्धि :	vrudhdih Improvement	வ்ருத்தி வளர்ச்சி
द् + भ = द्तभ अद्भुतम्	adbhutam Wonderful	அத்புத்ம் ஆச்சரியம்
द् + म = द्तम सद्म	sadma House	ஸத்ம வீடு

द + य = दय अद्य	adya Today	அத்'ய இன்று
द + र = अदि	adrih Mountain	அத்'ரி: மலை
द + व = दव विद्वान्	vidvaan Scholar	வித்'வான் வித்துவான்
ध + न = धन गृधु	grudhnah Greedy	க்'குத்'னு: கொறாமை
ध + म = धम इधम	idmah Fuel	இத்'ம: எரிபொருள்
ध + य = ध्य ध्यानम्	dhyaanam Meditation	தீ'யானம் தியானம்
ध + र = ध गृध	grudhrah Vulture	க்'குத்'ர: பாஜான் கழுநாடு
ध + व = ध्व ध्वान्तः	dhvaantah Darkness	தீ'வான்த: இருட்டு
न् + त = न्त अन्तः	antah End	அந்த: முடிவு
न् + थ = न्थ रोमन्थः	romanthah Chewing	ரோமந்த்: அசை பொருதல்
न् + द = न्द आनन्दः	aanandah Happiness	ஆனந்த்: மகிழ்ச்சி
न् + ध = न्ध अन्धः	andhah Blind	அந்த்: குருடு

न् + न = न्न अन्नम्	annam Food	அன்னம் சோடு
न् + म = म जन्म	janma Birth	ஜன்ம ஜன்மம்
न् + य = न्य अन्यः	anyah Other	அன்ய: மற்றவை
न् + व = न्व अन्वयः	anvayah Going after	அன்வய: பின் செல்லுதல்
प् + त = प्त प्राप्तिः	praaptih Acceptance	ப்ராப்தி: பிராப்தி
प् + प = प्य पिप्पली	pippalee Long peper	பிப்பலீ தீப்பிலி
प् + म = म् पाप्मा	paapmaa Sin	ப்ராப்மா பாவம்
प् + य = प्य रूष्यम्	roopyam Silver	ரூப்யம் வெள்ளி
प् + र = प् राजा	prajaa People	ப்ராஜா மக்கள்
प् + ल = प्ल आप्लवः	aaplavah Flood	ஆப்லவ: வெள்ளம்
प् + स = प्स ईप्सितम्	eepsitam Desired for	ஈப்ஸிதம் விருப்பியற்கு
फ् + य = फ्य म्फ्यम्	sphyam Wooden knife	ஈப்'ய மரக்கத்தி
व् + ज = व्ज कुब्ज	kubja crooked	கூப்'ஜ கவளைந்த
व् + द = व्द अब्दः	abdah Year	அப்'த: வருடம்

व + ध = वध लब्धि :	labdhih Gain	வ்'தி' பெறுதல்
व + व = विवोक :	bibbokah Indifference through pride	வி'வோ'க கிறிதல் உதா'சினம்
व + य = व्य कलैव्यम्	kalaibyam Cowardice	கலை'யம் கொறை
व + र = व वत्सा	brahmaa Lord Brahma	ப்'ரஹ்மா பிரம்மா
भू + य = भ्य सभ्य :	sabhyah Civilized	ஸப்'யஃ பண்புள்ள
भू + र = भ्र भ्रम :	bhramah Confusion	ப்'ரஹ் : குழப்பம்
म् + न = म्न निम्न :	nimnah Low	நி'ம்ன : கீழே
म् + प = म्प कम्प :	kampah Shiver	கம்'ப : நடுக்கம்
म् + फ = म्फ गुम्फनम्	gumphnam stringing together	கு'ம்ப்'னம் கோர்க்க
म् + व = म्व अम्बा	ambaa Mother	அம்'பா' அம்மா
म् + भ = म्भ कुम्भ :	kumbhah Pot	கு'ம்ப்' : கும்பம்

म् + म = म्म सम्मानम्	sammaanam Respect	ஸம்'மா'னம் யிரியாத
म् + य = म्य काम्यम्	kaamyam Wish or desire	காம்'யம் சூசை
म् + र = म आम्र :	aamrah Mango	ஆம்'ர : மாம்பழம்
म् + ल = म्ल अम्ल :	amlah Sour	அம்'ல : புளிப்பான
य + य = य्य कय्यम्	krayyam Thing Exhibited for sale	கர்'யம் வாக்குவதற்கான பொருள்
र + क = रक अर्क :	arkah Sun	அ'ர்க : சூரியன்
र + ग = रग विगर्ग :	visargah Dropping	வி'ஸர்க' : தள்ளல்
र + घ = रघ अर्घ :	arghah Value	அ'ர்க' : விலை
र + च = रच अर्चना	archanaa Worship	அ'ர்சனா பூஜித்தல்
र + ज = रज वर्जनम्	varjanam Leaving	வ'ர்ஜனம் தலித்தல்
र + ण = रण कर्ण :	karNah Ear	க'ர்ண : காத
र + त = रत गर्त :	gartah Ditch	க'ர்த : பள்ளம்

र + थ = रथ अर्थः	arthah Meaning	அந்த ² : பொருள்
र + ध = रध अर्धम्	ardham Half	அந்த ¹ ம் பாதி
र + प = रप सर्पः	sarpah Snake	ஸர்ப : பாம்பு
र + भ = रभ अर्भकः	arbhakah A child	அர்ப ¹ க : சிறு குழந்தை
र + म = रम कर्म	karma Deed	கர்ம வேலை
र + य = रय कार्यम्	kaaryani Work	கார்யம் வேலை
र + व = रव पर्वतः	parvatah Mountain	பர்வத : மலை
र + श = रश स्पर्शः	sparshah Touch	ஸ்பர்ஸ ² : தொடுதல்
ल + क = लक वल्कलम्	valkalam Bark of a tree	வல்கலம் மரவுரி
ल + ग = लग फाल्गुनम्	phaalgunam 12th Month	பா ¹ ல்கு ¹ ளம் பங்குனி
ल + प = लप खल्पः	svalphah Little	ஸ்வல்ப : சிறிய
ल + भ = लभ प्रगल्भः	pragalbhah Bold	ப்ரக ³ ல்ப ¹ : தைரியமுள்ள
ल + म = लम गुल्मः	gulmah Bush	கு ¹ ல்ம : புதல்

ल + य = लय शल्यम्	shalyam Spear	ஸ ² ல்யம் பட்டி
ल + ल = लल मल्लिका	mallikaa Jasmine	மல்லிகா மல்லிகை
ल + व = लव विल्वः	bilvah 'Bilva' leaf	பில்வ : வில்வம்
व + य = व्य व्योम	vyoma Sky	வ்யோம ஆகாயம்
श + च = श्च प्रायश्चित्तम्	praayashchitta m Expiation	ப்ராயஸ ¹ சித்தம் பிராயசித்தம்
श + न = श्न प्रश्नः	prashnah Question	ப்ரஸ ² ன : கேள்வி
श + म = श्म वेश्म	veshma House	வேஸ ² ம் வீடு
श + य = श्य श्यामः	shyaamah Black	ஸ ² யாம : கருப்பான
श + र = श्र श्रमः	shramah Difficult effort	ஸ ² ரம : கஷ்டம்
श + ल = श्ल श्लक्ष्णम्	shlakshhNam Smooth	ஸ ² லக்ஷ்ணம் மென்மையான
श + व = श्व अश्वः	ashvah Horse	அஸ ² வ : குதிரை
स् + क = स्क स्कन्दः	skandah Lord Subramanya	ஸ்கந்த : முருகன்

स् + त = स्त अस्तम्	astam Sun set	அஸ்தம் அஸ்தமனம்
स् + थ = स्थ अस्थि	asthi Bone	அஸ்தி எலும்பு
स् + प = स्प स्पर्शः	sparshah Touch	ஸ்பர்ஸு தொடுதல்
स् + फ = स्फ स्फुलिंगः	sphulingah Scattering sparks of fire	ஸ்புலிங்கு நெருப்பு பொறி
स् + म = म्म भस्म	bhasma Ash	பீஸம் சாம்பல்
स् + य = म्य आय्यम्	aasyam Face	ஆஸ்யம் முகம்
स् + र = स्र अजस्रम्	ajastam Ever	அஜஸ்தம் எப்பொழுதும்
स् + व = स्व स्वामी	svaamee Owner	ஸ்வாமீ உடையவன்
स् + म = म्य भिस्सा	bhissaa Cooked rice	பிஸ்ஸா சாதம்
ह + न = ह्न अपह्नुति	apahnuti Denial of truth	அபஹ்நுதி உண்மையை மறுத்தல்
ह + म = म जिह्म	jihma Curved	ஜிஹம் கோணல்
ह + य = ह्य ह्यः	hyah Yesterday	ஹ்யஃ நேற்று
ह + र = ह्र ह्रदः	hradah Sea, lake etc.	ஹ்ரதஃ குளம்
ह + ल = ह्ल आह्लादः	aahlaadah Pleasure	ஆஹ்லாதஃ சந்தோசம்
ह + व = व जिह्वा	jihvaa Tongue	ஜிஹ்வா நாக்கு

अयम् रामः	ayam raamah This (is) Rama	அயம் ராமஃ இவன் ராமன்
अयम् देवः	ayam devah This (is) God	அயம் தேவஃ இவன் தேவன்
इयं सीता	iyam seetaa This (is) seeta	இயம் சீதா இவள் சீதா
इयं देवी	iyam devee This (is) God	இயம் தேவி இவள் தேவி
इदं पुस्तकम्	idam pustakam This is (a) book	இதம் புத்தகம் இது புத்தகம்
इदं विशालम्	idam vishaalam This is big	இதம் விஸாலம் இது பெரியது
त्वं छात्रः	tvam chhatrah You (are a) student	த்வம் சாத்திர நீ மாணவன்
त्वं छात्रा	tvam chhaatra You (are a) student	த்வம் சாத்திரா நீ மாணவி
अहं बालः	aham balah I (am) (a) boy	அஹம் பால்ஃ நான் சிறுவன்
अहं बाला	aham baalaa I (am) (a) girl	அஹம் பாலா நான் சிறுமி
एषः ग्रामः	eshhah graamah This (is) village	ஏஷஃ கிராமஃ இது கிராமம்
एषः विशालः	eshhah vishaalah This (is) big	ஏஷஃ விஸாலஃ இது பெரியது
एषा नदी	eshhaa nadi This (is) river	ஏஷா நதி இது ஆறு
एषा गभीरा	eshhaa gabheeraa This (is) deep	ஏஷா கப்பீரா இது ஆழமானது
एतत् नगरम्	etat nagaram This (is) town	ஏதத் நகரம் இது நகரம்
एतत् शोभनम्	etat shobhanam This (is) nice	ஏதத் ஸோப்னம் இது அழகானது
सः गणेशः	sah gaNeshah He (is) Ganesha	ஸஃ கணேஸு அவன் கணேசன்
सः शिवपुत्रः	sah shivaputrah He (is) Siva's Son	ஸஃ ஸிவபுத்ரஃ அவன் சிவபுத்திரன்

सा लक्ष्मी
सा विष्णुपत्नी

तत् वस्त्रम्
तत् मदीयम्

असौ सुरेशः
असौ मम सखा

असौ रमा
असौ मम सखी

अदः पुष्पम्
अदः रक्तम्

सः किं
करोति?

सः पुस्तकं
पठति

सा किं
करोति?

सा ओदनं
पचति

saa lakshmee
She (is) Laxmi
saa vishhNupamee
She (is) Vishnu's
wife

tat vastram
That (is) cloth
tat mdeeyam
That (is) mine

asau sureshah
He (is) Suresh
asau mama sakhaa
He (is) my friend

asau ramaa
She (is) Rama
asau mama sakhee
She (is) my friend

adah pushhpam
That (is) flower
adah raktam
That (is) red

sah kim karoti ?
What (is) he doing ?

sah pustakam
paThati
He (is) reading
book.

saa kim karoti ?
What (is) she doing ?

ssa oodanam
pachati
She (is) cooking
food

सा लक्ष्मी
असौ लक्ष्मी
सा विष्णुपत्नी
असौ विष्णुपत्नी
मனைவி

தத் வஸ்த்ரம்
அது துணி
தத் மதீயம்

அது என்னுடையது
அவன் ஸுரேஷ்
அவன் மம சகா

அவன் என் நண்பன்
அவள் ராமா
இவள் மம சகி

இவன் என் தோழி
அத : புஷ்பம்
அத : ரக்தம்

அது சிவப்பானது
ஸ : கிம் கரோதி?
அவன் என்ன
செய்கிறான்?

ஸ : புஸ்தகம் படித்தி
அவன் புத்தகம்
படிக்கிறான்

ஸா கிம் கரோதி?
அவள் என்ன
செய்கிறாள்?

ஸா ஒதனம் பசுதி
அவள் சோறு
சமைக்கிறாள்

एषः किं
करोति?

एषः दुग्धं
पिबति

एषा किं
करोति?

एषा गीतं
गायति

अयं किं
करोति?

अयं चित्रं
पश्यति

इयं किं
करोति?

इयं आमं
खादति

त्वम् किं
करोषि?

त्वम् गृहं
गच्छसि

eshlah kim karoti?
What (is) he doing?

eshlah dugdham
pibati
He (is) drinking
milk

eshhaa kim karoti ?
What (is) she doing ?

eshhaa geetam
gaayati
She (is) singing
song

ayam kim karoti ?
What (is) he doing ?

ayam chitram
pashyati
He (is) seeing
picture

iyam kim karoti ?
What (is) she doing ?

iyam aamram
khadati
She (is) eating
mango

tvam kim karoshihi
?
What (are) you
doing ?

tvam graham
gachchhasi
You (are) going
home

ஏஷ : கிம் கரோதி?
இவன் என்ன
செய்கிறான்?

ஏஷ : துக் தம்
பிப்தி
இவன் பால்
குடிக்கிறான்

ஏஷா கிம் கரோதி?
இவள் என்ன
செய்கிறாள்?

ஏஷா கீதம் காபதி
இவள் பாட்டு
பாடுகிறாள்

அயம் கிம் கரோதி?
இவன் என்ன
செய்கிறான்?

அயம் சித்ரம்
பாப்தி
இவன் படம்
பார்க்கிறான்

இயம் கிம் கரோதி?
இவள் என்ன
செய்கிறாள்?

இயம் ஆம்ரம்
காத்தி
இவள் மாம்பழம்
சாப்பிடுகிறாள்

தவம் கிம் கரோஷி?
நீ என்ன
செய்கிறாய்?

தவம் க்ருஹம்
கச்சஸி
நீ வீட்டிற்கு
செல்கிறாய்

अहं किं करोमि?	aham kim karomi? What (am) I doing?	அஹம் கிம் கரோமி? என்ன என்ன செய்துகொண்டேன்?
अहं पत्रं लिखामि	aham patram likhami I (am) writing letter	அஹம் பத்ரம் லிக்ஷாமி எனன் கடிதம் எழுதுகொண்டேன்
तत् किं अस्ति?	tat kim asti? What is that?	தத் கிம் அஸ்தி? அது என்ன?
तत् गृहं अस्ति	tat graham asti That is house	தத் க்'ரஹம் அஸ்தி அது வீடு
एतत् किं अस्ति?	etat kim asti? What is this ?	ஏதத் கிம் அஸ்தி? இது என்ன?
एतत् पुष्पम् अस्ति	etat pushpam asti This is flower	ஏதத் புஷ்பம் அஸ்தி இது டு

वर्षे द्वादश मासा ः भवन्ति

- 1 | चैत्र ः
- 2 | वैशाख ः
- 3 | ज्येष्ठ ः
- 4 | आषाढ ः
- 5 | श्रावण ः
- 6 | भाद्र ः
- 7 | आश्विन ः
- 8 | कार्तिक ः
- 9 | मार्गशीर्ष ः
- 10 | पौष ः
- 11 | माघ ः
- 12 | फाल्गुन ः

मासे द्वौ पक्षौ

कृष्णपक्ष :

शुक्लपक्ष :

सप्ताहे सप्त दिनानि

- 1 | सोमवासरः
- 2 | मङ्गलवासरः
- 3 | बुधवासरः
- 4 | गुरुवासरः
- 5 | शुकवासरः
- 6 | शनिवासरः
- 7 | रविवासरः

शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशम्
विश्वाकारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गम् ।
लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यम्
वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम् । ।

या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता
या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना ।
या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा पूजिता
सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा । ।

त्वमेव माता च पिता त्वमेव
त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव ।
त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव
त्वमेव सर्वं मम देव देव । ।

गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः ।
गुरुः साक्षात्परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः । ।

ईश ः देव ः गौरीजानि ः
विष्णु ः देव ः लक्ष्मीजानि ः ।
ब्रह्मा देव ः वाणीजानि ः
राम ः देव ः सीताजानि ः । ।

राजा सिग्ध ः मन्त्री ज्ञानी
सत्यान्वेषी न्यायाधीश ः ।
शूर ः भक्त ः चेत्सेनानी
देशे तस्मिन् वास ः कार्य ः । ।

गङ्गास्नानं देवध्यानम्
काञ्चीवास ः काशीमृत्यु ः ।
धर्मज्ञानम् कर्मप्राप्ति ः
भाग्यायत्तम् सर्वञ्चैतत् । ।

मृत्यु ः नित्य ः वेदो नित्य ः
नार्थो नित्य ः नित्यं ब्रह्म ।
प्रातः स्नानम् देवध्यानम्
सज्जनसेवा नित्यं कर्म । ।



Text book for Sanskrit Students

Book no. Two

LESSON-1

सः बालकः अस्ति

He is (a) boy

அவன் சிறுவன்

सा बालिका अस्ति

She is (a) Girl

அவள் சிறுமி

तद् फलम् अस्ति

That is (a) Fruit

அது பழம்

त्वं बालकः अस्ति

You are (a) boy

நீ சிறுவன்

त्वं बालिका अस्ति

You are (a) Girl

நீ சிறுமி

अहं अध्यापकः अस्मि

I am (a) Teacher (M)

நான் ஆசிரியர்

अहं अध्यापिका अस्मि

I am (a) Teacher (F)

நான் ஆசிரியை

तौ बालिकौ स्तः

They two are boys

அவர்கள் இருவரும் சிறுவர்கள்

तौ बालिके स्तः

They two are girls

அவர்கள் இருவரும் சிறுமிகள்

ते फले स्तः

These are fruits

இது பழங்கள்

युवाम् बालकौ स्तः

You two are boys

நீங்கள் இருவரும் சிறுவர்கள்

युवाम् बालिके स्तः

You two are Girls

நீங்கள் இருவரும் சிறுமிகள்

आयाम् अध्यापकौ स्तः

We two are Teachers(M)

நாம் இருவரும் ஆசிரியர்கள்

आयाम् अध्यापिके स्तः

We two are Teachers(F)

நாம் இருவரும் ஆசிரியைகள்

ते बालकाः सन्ति

They are boys

அவர்கள் அனைவரும் சிறுவர்கள்

ताः बालिकाः सन्ति

They are Girls

அவர்கள் அனைவரும் சிறுமிகள்

तानि फलानि सन्ति

They are fruits

அவை அனைத்தும் பழங்கள்

युवम् बालकाः स्य

You all are boys

தீங்கள் அனைவரும் சிறுவர்கள்

युवम् बालिकाः स्य

You all are Girls

தீங்கள் அனைவரும் சிறுமிகள்

वयम् अध्यापकाः स्मः

We all are Teacher (M)

நாம் அனைவரும் ஆசிரியர்கள்

वयम् अध्यापिकाः स्मः

We all are Teacher (F)

நாம் அனைவரும் ஆசிரியைகள்

Observe that according to the subject the form of the verb changes

सः अस्ति

तौ स्तः

ते सन्ति

त्वं असि

युवाम् स्यः

युवम् स्य

अहं अस्मि

आवां स्यः

वयम् स्यः

LESSONS-2

सः बालकः पुस्तकम् पठति

That boy (is) reading (a) book

அந்த சிறுவன் புத்தகம் படிக்கிறான்

सा बालिका पुस्तकम् पठति

That girl (is) reading (a) book

அந்த சிறுமி புத்தகம் படிக்கிறாள்

सा मित्रम् पुस्तकम् पठति

That friend (is) reading (a) book

அந்த நண்பன் புத்தகம் படிக்கிறான்

त्वं पुस्तकम् पठसि

You (are) reading (a) book

நீ புத்தகம் படிக்கிறாய்

अहं पुस्तकम् पठामि

I am reading (a) book

நான் புத்தகம் படிக்கிறேன்

तौ छात्रौ पुस्तकम् पठतः

Those (two) students (M) are reading (a) book

அந்த இரு மாணவர்கள் படிக்கிறார்கள்

ते छात्रे पुस्तकम् पठतः

Those (two) students (F) are reading (a) book

அந்த இரு மாணவிகள் படிக்கிறார்கள்

ते मित्रे पुस्तकम् पठतः

Those (two) Friends (M) are reading (a) book

அந்த இரு மாணவர்கள் படிக்கிறார்கள்

युवाम् पुस्तकम् पठथः

You (two) (are) reading (a) book

நீங்கள் இருவரும் புத்தகம் படிக்கிறீர்கள்

आवाम् पुस्तकम् पठामः

We (two) (are) reading (a) book

நாங்கள் இருவரும் புத்தகம் படிக்கிறோம்

ते बालकाः पुस्तकम् पठन्ति

Those boys are (M) reading (a) book

அந்த சிறுவர்கள் புத்தகம் படிக்கிறார்கள்

ताः बालिकाः पुस्तकम् पठन्ति

Those Girls are (F) reading (a) book

அந்த சிறுமிகள் புத்தகம் படிக்கிறார்கள்

तानि मित्राणि पुस्तकम् पठन्ति

Those Friends are (M) reading (a) book

அந்த நண்பர்கள் புத்தகம் படிக்கிறார்கள்

यूयम् पुस्तकम् पठथ

You all are (M) reading book

நீங்கள் புத்தகம் படிக்கிறீர்கள்

वयम् पुस्तकम् पठामः

We all (are) reading book

நாம் புத்தகம் படிக்கிறோம்

सः बालकः पुस्तके पठति

That boy is (M) reading (two) books

அந்த சிறுவன் இரண்டு புத்தகம் படிக்கிறான்

सा बालिका पुस्तके पठति

That Girl (is) reading (two) books

அந்த சிறுமி இரண்டு புத்தகம் படிக்கிறாள்

तत् मित्रम् पुस्तके पठति

That Friend is reading (two) books

அந்த நண்பன் இரண்டு புத்தகம் படிக்கிறான்

त्वम् पुस्तके पठसि

You (are) reading (two) books

நீ இரண்டு புத்தகங்களை படிக்கிறாய்

अहं पुस्तके पठामि

I am reading (two) books

நான் இரண்டு புத்தகம் படிக்கிறேன்

ती छात्री पुस्तके पठतः

Those Two students are (M) reading (two) books

அந்த இரு மாணவர்கள் இரு புத்தகங்களை
படிக்கிறார்கள்

बालिके पुस्तके पठतः

Those Two Girls (are) reading (two) books

அந்த இரு மாணவி இரு புத்தகங்களை
படிக்கிறார்கள்

ते मित्रे पुस्तके पठतः

Those Two Friends are (M) reading (two) books

அந்த இரு மாணவர்கள் இரு புத்தகங்களை
படிக்கிறார்கள்

युयाम् पुस्तके पठथः

You two are reading (two) books

நீங்கள் இருவரும் இரண்டு புத்தகங்களை
படிக்கிறீர்கள்.

आयाम् पुस्तके पठामः

We two are reading (two) books

நாம் இருவரும் இரண்டு புத்தகங்களை
படிக்கிறோம்.

ते बालकाः पुस्तके पठन्ति

Those boys are reading (two) books

அந்த சிறுவர்கள் இரண்டு புத்தகங்களை
படிக்கிறார்கள்.

ताः बालिकाः पुस्तके पठन्ति

Those girls are reading (two) books

அந்த சிறுமிகள் இரண்டு புத்தகங்களை
படிக்கிறார்கள்.

तानि मित्राणि पुस्तके पठन्ति

Those friends are reading (two) books

அந்த நண்பர்கள் இரண்டு புத்தகங்களை
படிக்கிறார்கள்.

युयम् पुस्तकानि पठन्ति

You all are reading (two) books

தீங்கள் இரண்டு புத்தகங்களை
படிக்கிறீர்கள்.

वयम् पुस्तके पठामः

We all are reading (two) books

நாம் இரண்டு புத்தகங்களை படிக்கிறோம்

सः बालकः पुस्तकानि पठति

That boy is reading (many) books

அந்த சிறுவன் புத்தகங்களை படிக்கிறான்.

सा बालिका पुस्तकानि पठति

That Girl is reading (many) books

அந்த சிறுமி புத்தகங்களை படிக்கிறாள்

तत् मित्रम् पुस्तकानि पठति

That Friend is reading (many) books

அந்த நண்பர் புத்தகங்களை படிக்கிறான்

त्वम् पुस्तकानि पठसि

You are reading (many) books

நீ புத்தகங்களை படிக்கிறாய்

अहं पुस्तकानि पठामि

I am reading (many) books

நான் புத்தகங்களை படிக்கிறேன்

तौ छात्री पुस्तकानि पठतः

Those two students (M) are reading (many) books

அந்த (இரு)சிறுவர்கள் புத்தகங்களை
படிக்கிறார்கள்

ते बालिके पुस्तकानि पठतः

Those two students (F) are reading (many) books

அந்த (இரு)சிறுமிகள் புத்தகங்களை
படிக்கிறார்கள்

ते मित्रे पुस्तकानि पठतः

Those two Friends are reading (many) books

அந்த (இரு)நண்பர்கள் புத்தகங்களை
படிக்கிறார்கள்

यूयम् पुस्तकानि पठथ

You two are reading (many) books

தீங்கள் இருவரும் புத்தகங்களை படிக்கிறீர்கள்

आवाम् पुस्तकानि पठामः

We (two) are reading (many) books

நாம் இருவரும் புத்தகங்களை படிக்கிறோம்

ते बालकाः पुस्तकानि पठन्ति

Those boys (are) reading (many) books

அந்த சிறுவர்கள் புத்தகங்களை படிக்கிறார்கள்

ता बालिकाः पुस्तकानि पठन्ति

Those Girls (are) reading (many) books

அந்த சிறுமிகள் புத்தகங்களை படிக்கிறார்கள்

तानि विद्याणि पुस्तकानि पठन्ति

Those Friends (are) reading (many) books

அந்த நண்பர்கள் புத்தகங்களை படிக்கிறார்கள்

यूयम् पुस्तकानि पठथ

You all (are) reading (many) books

நீங்கள் புத்தகங்களை படிக்கிறீர்கள்

वयम् पुस्तकानि पठामः

We all (are) reading (many) books

நாம் புத்தகங்களை படிக்கிறோம்

Lessons- 3

सः बालकः आसीत्

He was (a) boy

அவன் சிறுவனாக இருந்தான்

सा बालिका आसीत्

She was (a) Girl

அவள் சிறுமியாக இருந்தாள்

तद् फलम् आसीत्

That was (a) fruit

அது பழமாக இருந்தது

त्वं बालकः आसीः

You were (a) boy

நீ சிறுவனாக இருந்தாய்

त्वं बालिका आसीः

You were (a) Girl

நீ சிறுமியாக இருந்தாய்

अहं अध्यापकः आसम्

I was (a) teacher (M)

நான் ஆசிரியனாக இருந்தேன்

अहं अध्यापिका आसम्

I was (a) teacher (F)

நான் ஆசிரியையாக இருந்தேன்

ती बालके आस्ताम्

They two were boys

அவர்கள் இருவரும் சிறுவர்களாக இருந்தார்கள்

बालके आस्ताम्

They two were girls

அவர்கள் இருவரும் சிறுமிகளாக இருந்தார்கள்

ते फले आस्ताम्

Those two were fruits

அவை இரண்டு பழங்களாக இருந்தன

युवाम् बालके आस्ताम्

You two were boys

நீங்கள் இருவரும் சிறுவர்களாக இருந்தீர்கள்

युवाम् बालिके आस्ताम्

You two were girls

நீங்கள் இருவரும் சிறுமிகளாக இருந்தீர்கள்

आवाम् अध्यापके आसम्

We two were Teachers (M)

நாம் இருவரும் ஆசிரியர்களாக இருந்தோம்

आवाम् अध्यापके आसम्

We two were Teachers (F)

நாம் இருவரும் ஆசிரியைகளாக இருந்தோம்

ते बालकः आसम्

They were boys

அவர்கள் சிறுவர்களாக இருந்தார்கள்

ताः बालिकाः आसम्

They were girls

तानि फलानि आसन्

அவர்கள் சிறுமிகளாக இருந்தார்கள்

Those were Fruits

युवम् बालकाः आसन्

அவைகள் பழங்களாக இருந்தன

You all were boys

युवम् बालिकाः आसन्

தீங்கள் சிறுவர்களாக இருந்தீர்கள்

You all were Girls

यवम् अष्टापकाः आसन्

தீங்கள் சிறுமிகளாக இருந்தீர்கள்

We all were teachers (M)

நாம் ஆசிரியர்களாக இருந்தோம்

यवम् अष्टापिकाः आसन्

We all were teachers (F)

நாம் ஆசிரியைகளாக இருந்தோம்

Lessons -4

एः बालकः पुस्तकम् अपठत्

That boys read (a) book.

அந்த சிறுவன் புத்தகம் படிக்கிறான்

सा बालिका पुस्तकम् अपठत्

That Girls read (a) book.

அந்த சிறுமி புத்தகம் படிக்கிறாள்

तत् मित्रम् पुस्तकम् अपठत्

That friend read (a) book.

அந்த நண்பன் புத்தகம் படித்தான்

त्वं पुस्तकम् अपठः

You read read (a) book.

நீ புத்தகம் படித்தாய்

अहं पुस्तकम् अपठम्

I read (a) book.

நான் புத்தகம் படித்தேன்

ती छात्री पुस्तकम् अपठताम्

Those two students read book

அந்த இரு மாணவர்கள் புத்தகம் படித்தார்கள்

ते बालिके पुस्तकम् अपठताम्

Those two Girls read book

அந்த இரு மாணவிகள் புத்தகம் படித்தார்கள்

ते मित्रे पुस्तकम् अपठताम्

Those two friends read book

அந்த இரு நண்பர்கள் புத்தகம் படித்தார்கள்

युवाम् पुस्तकम् अपठताम्

You two read book

நீங்கள் இருவரும் புத்தகம் படித்தீர்கள்

आवाम् पुस्तकम् अपठाम

We two read book

நாம் இருவரும் புத்தகம் படித்தோம்

ते बालकाः पुस्तकम् अपठन्

Those boys read book

அந்த சிறுவர்கள் மாணவர்கள் புத்தகம் படித்தார்கள்

ताः बालिकाः पुस्तकम् अपठन्

Those Girls read book

அந்த சிறுமிகள் புத்தகம் படித்தார்கள்

तानि मित्राणि पुस्तकम् अपठन्

Those Friends read books

அந்த நண்பர்கள் புத்தகம் படித்தார்கள்

युवम् पुस्तकानि पठथ

You all read many books

நீங்கள் புத்தகங்களை படிக்கிறீர்கள்

वयम् पुस्तकानि पठामः

We all read books

நாம் புத்தகங்களை படிக்கிறோம்

Lesson-5

तत्र सः बालकः भविष्यति

That boy will be there

அங்கே அந்த சிறுவன் இருப்பான்

तत्र सा बालिका भविष्यति

That girl will be there

அங்கே அந்த சிறுமி இருப்பாள்

तत्र तद् फलम् भविष्यति

That fruit will be there

அங்கே அந்த பழம் இருக்கும்

त्वं छात्रः भविष्यसि

You will become (a) student (M)

நீ மாணவனாக ஆவாய்

त्वं छात्रा भविष्यसि

You will become (a) student (F)

நீ மாணவியாக ஆவாய்

अहं अध्यापकः भविष्यामि

I will become (a) Teacher(M)

நான் ஆசிரியனாக ஆவேன்

अहं अध्यापिका भविष्यामि

I will become (a) Teacher(F)

நான் ஆசிரியையாக ஆவேன்

तत्र तौ बालकौ भविष्यतः

Those two boys will be there

அந்த இரு சிறுவர்கள் அங்கே இருப்பார்கள்

तत्र ते बालिके भविष्यतः

Those two Girls will be there

அந்த இரு சிறுமிகள் அங்கே இருப்பார்கள்

तत्र ते फलं भविष्यतः

Those two fruits will be there

அந்த இரு பழங்களும் அங்கே இருக்கும்

युवाम् छात्रौ भविष्यथ

You both will become students (M)

நீங்கள் இருவரும் சிறுவர்களாக ஆவீர்கள்

ते बालकाः पुस्तकानि अपठन्

Those boys read Many books

அந்த சிறுவர்கள் புத்தகங்களை படித்தார்கள்

साः बालिकाः पुस्तकानि अपठन्

Those Girls read many books

அந்த சிறுமிகள் புத்தகங்களை படித்தார்கள்

तानि मित्राणि पुस्तकानि

Those Friends read many books

அந்த நண்பர்கள் புத்தகங்களை படித்தார்கள்

युष्मद् पुस्तकानि अपठन्

You all read (many) books

நீங்கள் புத்தகங்களை படித்தீர்கள்

वयम् पुस्तकानि अपठाम

We all read many books

युवम् छात्रे भविष्यथः	நாம் புஸ்தகங்களை படித்தோம் You both will become students (F) நீங்கள் இருவரும் சிறுமிகளாக ஆவீர்கள்
आयाम् अध्यापको भविष्यामः	We two will will become Teachers(M) நாம் இருவர்களும் ஆசிரியர்களாக ஆவோம்
आयाम् अध्यापिका भविष्यामः	We two will will become Teachers(F) நாம் இருவர்களும் ஆசிரியைகளாக ஆவோம்
तत्र ते छात्राः भविष्यन्ति	Those boys will be there அந்த சிறுவர்கள் அங்கே இருப்பார்கள்.
तत्र ताः बालिकाः भविष्यन्ति	Those Girls will be there அந்த சிறுமிகள் அங்கே இருப்பார்கள்
तानि फलानि भविष्यन्ति	Those are Fruits அவை பழங்களாக ஆகும்
युवम् छात्रः भविष्यथ	You will become students நீங்கள் அனைவரும் சிறுவர்களாக ஆவீர்கள்
तत्र युवम् बालिकाः भविष्यथ	Those Girls will be there நீங்கள் அனைவரும் சிறுமிகளாக ஆவீர்கள்
वयम् अध्यापकाः भविष्यामः	We all will become teachers (M) நாம் அனைவரும் ஆசிரியர்களாக ஆவோம்
वयम् अध्यापिकाः भविष्यामः	We all will become teachers (F) நாம் அனைவரும் ஆசிரியைகளாக ஆவோம்

Lessons-6

सः बालकः पुस्तकम् पठिष्यति

That boy will read (a) book

அந்த சிறுவன் புத்தகம் படிப்பான்

बालिका पुस्तकम् पठिष्यति

That Girl will read (a) book

அந்த சிறுமி புத்தகம் படிப்பாள்

तान् मित्रम् पुस्तकम् पठिष्यति

That friend will read (a) book

அந்த நண்பன் புத்தகம் படிப்பான்

त्वम् पुस्तकम् पठिष्यसि

You will read (a) book

நீ புத்தகம் படிப்பாய்

अहं पुस्तकम् पठिष्यामि

I will read (a) book

நான் புத்தகம் படிப்பேன்

ती छात्री पुस्तकम् पठिष्यतः

Those (two) students will read (a) book

அந்த இரு மாணவர்கள் புத்தகம் படிப்பார்கள்

ते बालिके पुस्तकम् पठिष्यतः

Those (two) Girls will read (a) book

அந்த இரு மாணவிகள் புத்தகம் படிப்பார்கள்

ते मित्रे पुस्तकम् पठिष्यतः

Those (two) friends will read (a) book

அந்த இரு நண்பர்கள் புத்தகம் படிப்பார்கள்

युवाम् पुस्तकम् पठिष्यथः

You (two) will read (a) book

நீங்கள் இருவரும் புத்தகம் படிப்பீர்கள்

आवाम् पुस्तकम् पठिष्यावः

We (two) will read (a) book

நாங்கள் இருவரும் புத்தகம் படிப்போம்

ते बालकः पुस्तकम् पठिष्यन्ति

Those boys will read (a) book

அந்த சிறுவர்கள் புத்தகம் படிப்பார்கள்

ताः बालिकाः पुस्तकम् पठिष्यन्ति

Those Girls will read (a) book

அந்த சிறுமிகள் புத்தகம் படிப்பார்கள்

तानि मित्रानि पुस्तकम् पठिष्यन्ति

Those friends will read (a) book

அந்த நண்பர்கள் புத்தகம் படிப்பார்கள்

युवम् पुस्तकम् पठिष्यथ

You all will read (a) book

நீங்கள் இருவரும் புத்தகம் படிப்பீர்கள்

वयम् पुस्तकम् पठिष्यामः

We all will read (a) book

நாங்கள் இருவரும் புத்தகம் படிப்போம்

सः बालकः पुस्तके पठिष्यति

That boy will read (two)books

அந்த சிறுவர்கள் புத்தகம் படிப்பார்கள்

सा बालिका पुस्तके पठिष्यति

That Girl will read (two)books

	அந்த சிறுமிகள் புஸ்தகம் படிப்பார்கள்
तत् मित्रम् पुस्तके पठिष्यति	That Friend will read (two)books
	அந்த நண்பர்கள் புஸ்தகம் படிப்பார்கள்
त्वं पुस्तके पठिष्यसि	You will read (two) books
	நீங்கள் இரண்டு புஸ்தகம் படிப்பாய்
अहं पुस्तके पठिष्यामि	I will read (two)books
	நான் இரண்டு புஸ்தகம் படிப்பேன்
तौ छात्री पुस्तके पठिष्यतः	Those (two) students will read (two)books
	அந்த இரு மாணவர்கள் இரண்டு புஸ்தகம் படிப்பார்கள்
ते बालिका पुस्तके पठिष्यत	Those (two) Girls will read (two)books
	அந்த இரு மாணவிகள் இரண்டு புஸ்தகம் படிப்பார்கள்
ते मित्रे पुस्तके पठिष्यतः	Those (two) friends will read (two)books
	அந்த இரு நண்பர்கள் இரண்டு புஸ்தகம் படிப்பார்கள்
बुधाम् पुस्तके पठिष्यथः	You (two) will read (two)books
	நீ இருவரும் இரண்டு புஸ்தகம் படிப்பாய்
आवाम् पुस्तके पठिष्याथः	We (two) will read (two)books
	நாம் இருவரும் இரண்டு புஸ்தகம் படிப்பேன்
ते बालकाः पुस्तके पठिष्यन्ति	Those boys will read (two)books
	அந்த சிறுவர்கள் இரண்டு புஸ்தகம் படிப்பார்கள்
ताः बालिकाः पुस्तके पठिष्यन्ति	Those Girls will read (two)books
	அந்த சிறுமிகள் இரண்டு புஸ்தகம் படிப்பார்கள்
तानि मित्राणि पुस्तके पठिष्यन्ति	Those Friends will read (two)books
	அந்த நண்பர்கள் இரண்டு புஸ்தகம் படிப்பார்கள்
यूयम् पुस्तके पठिष्यथ	You all will read (two)books
	நீங்கள் இருவரும் இரண்டு புஸ்தகம் படிப்பீர்கள்
वयम् पुस्तके पठिष्यामः	We all will read (two)books
	நங்கள் இருவரும் இரண்டு புஸ்தகம் படிப்போம்
एः बालकः पुस्तकानि पठिष्यति	That boy will read many books
	அந்த சிறுவர்கள் புஸ்தகங்கள் படிப்பார்கள்
तत् मित्रम् पुस्तकानि पठिष्यति	That friend will read many books
	அந்த நண்பர்கள் புஸ்தகங்கள் படிப்பார்கள்
त्वं पुस्तकानि पठिष्यसि	You will read many books
	நீங்கள் புஸ்தகங்கள் படிப்பீர்கள்

अहं पुस्तकानि पठिष्यामि

I will read many books

நாங்கள் புத்தகங்கள் படிப்போம்

ते बालिके पुस्तकानि पठिष्यतः

Those two students will read many books

அந்த இரு மாணவர்கள் புத்தகங்கள் படிப்பார்கள்

ते मित्रे पुस्तकानि पठिष्यतः

Those two Friends will read many books

அந்த இரு நண்பர்கள் புத்தகங்கள் படிப்பார்கள்

युवाम् पुस्तकानि पठिष्यथः

You two will read many books

நீங்கள் இருவரும் புத்தகங்கள் படிப்பீர்கள்

आवाम् पुस्तकानि पठिष्यावः

We two students will read many books

நாங்கள் இருவரும் புத்தகங்கள் படிப்போம்

ते बालकाः पुस्तकानि पठिष्यन्ति

Those boys will read many books

அந்த சிறுவர்கள் புத்தகங்கள் படிப்பார்கள்

ते बालकाः पुस्तकानि पठिष्यन्ति

Those girls will read many books

அந்த சிறுமிகள் புத்தகங்கள் படிப்பார்கள்

हानि मित्राणि पुस्तकानि पठिष्यन्ति

Those Friends will read many books

அந்த நண்பர்கள் புத்தகங்கள் படிப்பார்கள்

यूयम् पुस्तकानि पठिष्यथ

You all will read many books

நீங்கள் புத்தகங்கள் படிப்பீர்கள்

वयम् पुस्तकानि पठिष्यामः

We all will read many books

நாங்கள் புத்தகங்கள் படிப்போம்

Lesson 7

अव वृक्षः विशालः अस्ति

This tree is large

இந்த மரம் விசாலமாக இருக்கிறது

सञ्ज्ञा वृक्षम् उन्मूलयति

Cyclone uproots the tree

புயல் மரத்தை வீழ்த்துகிறது

वृक्षेण किम् प्रयोजनम्

What is the use of Tree

மரத்தால் என்ன பயன்

सः वृक्षाय जलं ददाति

He gives water to the Tree

அவன் மரத்துக்கு நீர் கொடுக்கிறான்

वृक्षान् पत्रं पतति

Leaf fall from the Tree

மரத்திலிருந்து இலை விழுகிறது

वृक्षस्य शाखा स्तूणा अस्ति

The Tree's branch is large

மரத்தின் கிளை பெரியதாக இருக்கிறது

पुले वानराः वसन्ति

Monkey live on the Tree

மரத்தில் குரங்குகள் வசிக்கின்றன

हे वृक्ष त्वं फलदाः अस्ति

O Tree you are giver of fruits

ஔ மரமே நீ பழங்களை கொடுக்கிறாய்

मम प्राङ्गणे वृक्षी स्तः

Two trees are in my garden

என் முற்றத்தில் இரு மரங்கள் உள்ளன

वृक्षी परितः लताः सन्ति

Creeper are around two trees

இரு மரங்களைச் சுற்றி கொடிகள் உள்ளன

वृक्षाभ्याम् सह मम स्नेहः अस्ति

I have love with two trees

இரு மரங்களோடு என் அன்பு உள்ளது

अहं वृक्षाभ्यां फलानि प्राप्नोमि

I get fruits from two trees

நான் இருமரங்களிலிருந்து பழங்களை அடைகிறேன்

वृक्षयोः शाखाः स्वृत्तः सन्ति

The branches of two trees are strong

இரு மரங்களின் கிளைகள் பெரியதாக உள்ளன

वृक्षयोः अनेके पक्षाः वसन्ति

Many birds live on two trees

இரு மரங்களில் பறவைகள் வசிக்கின்றன

हे वृक्षी वृक्षान् मम द्विवी स्तः

O two trees You two are my love

ஔ இரு மரங்களே நீங்கள் என் அன்பர்களாக உள்ளீர்கள்

आरामे आस्राणां वृक्षाः सन्ति

Mango trees are in the Garden

தோட்டத்தில் மாமரங்கள் உள்ளன

वर्मकराः वृक्षान् पालयन्ति

The servants protect many trees

வேலைக்காரர்கள் மரங்களை காக்கின்றனர்

कृषकाणां वृक्षैः महान् लाभः भवति

There is lot of use to the farmers by the trees

உழவர்களுக்கு மரங்களால் நிறைய லாபம் உண்டுக

शिशिरः वृक्षेभ्यः न शोभनः अस्ति

The autumn seasons is not good for trees

Lessons – 8

एकः बालकः तत्र खेलति

A boy is playing there

ஒரு பையன் அங்கே விளையாடுகிறான்

सः रामः अस्ति

He is Ram

அவன் இராமன்

तम् भवान् पश्यतु

You should see him

அவனை நீங்கள் பாருங்கள்

तेन सह मय मैत्री

I have friendship with him

அவனோடு என் நட்பு இருக்கிறது

तस्मै भवतु इदं पत्रम कदातु

You should give this letter to him

அவனுக்கு நீங்கள் இந்தக் கடிதத்தை கொடுங்கள்

तस्मात् अधिकः सुन्दरः अत्र कः अस्ति

Who is more beautiful here than him

அவனிலிருந்து சிறந்த அழகன் இங்கே எவன் இருக்கிறான்

तस्य मुखे एका आभा अस्ति

There is a brightness in his face

அவனுடைய முகத்தில் ஒரு ஒளி இருக்கிறது

तस्मिन् सर्वेषाम् प्रीतिः अस्ति

All have affection towards him

அவளில் எல்லோருடைய அன்பும் இருக்கிறது

रामः श्यामा च विद्यालयं गच्छतः

Ram and Shyam go to school

ராமனும் ச்யாமாவும் பள்ளி செல்கின்றனர்

तौ पञ्चमकक्षायाम् पठतः

They read in 5th standard

அவரிருவரும் ஐந்தாம் வகுப்பில் படிக்கின்றனர்

अहं तौ संस्कृतम् वाचयामि

I teach them sanskrit

நான் அவரிருவரை எம்ஸ்க்ருதம் கற்பிக்கிறேன்

ताभ्यां पठते महान् श्रमः कृतः

Hard labour is done in reading by them

கடின உழைப்பாள் கூட அவர்களுடன் பழிக்கிறார்கள்

विद्यालये भूयः ताभ्यां भोजनं आनवति

A Servant bring food for them in School

பள்ளியில் வேலைக்காரன் அவரிருவருக்கு வருகிறான் உணவு கொண்டு

विद्यालये ताभ्याम् अन्यः संस्कृतं न पठि

No one reads sanskrit other than

அவரிருவரிலிருந்து வேறு எவரும் எம்ஸ்க்ருதம் படிக்கவில்லை

तयोः मातृभाषा हिन्दी अस्ति तयोः

Their mother tongue is Hindi

அவரிருவருடைய தாய்மொழி ஹிந்தி

रामः अधिकः शीघ्रः अस्ति

Ram is more intelligent among them

அவர்களுவரில் ராமன் மிகுந்த புத்திசாலி

तत्र बहवः जनाः सन्ति

There are many people there

அங்கே நிறைய மக்கள் இருக்கிறார்களாம்

ते बसवानाय इतीक्षन्ते

They are waiting for the bus

அவர்கள் பேருத்திற்காக காத்திருக்கிறார்கள்

ते कार्यालयं गमिष्यन्ति

They will go to the office

அவர்கள் காரியாலயம் செல்வார்கள்

तान् पश्य

See them

அவர்களை பார்

तैः पत्रिकाः पठ्यन्ते

Journals are read by them

அவர்களால் பத்திரிக்கை படிக்கப்படுகின்றன

ममि आलस्यं न भवतु

There should not be laziness in me

என்னில் சோம்பல் இருக்கக்கூடாது

गृहे पठितुम् तेभ्यः कालः नास्ति

There is no time to read for them

வீட்டில் படிப்பதற்கு அவர்களுக்கு நேரம் இல்லை

तेभ्यः अधिकः व्यस्तः अगः न भवति

No one is more busy than them

அவர்களிலிருந்து மிகுந்த வேலையுள்ளவர்கள் வேறு யாரும் இல்லை

तेषां मध्याह्नभोजनं तैः सह एव भवति ।

Their lunch is with them

அவர்களுடைய மதிய உணவு அவர்களுடன் தான் இருக்கும்

तेषु बहवः लिपिकाः भवन्ति

There are many clerks among them

அவர்களில் நிறைய கணக்கர்கள் இருக்கிறார்கள்

Lesson – 9

अहं शोभतः कावः अस्मि

I am a good student

நான் ஒரு நல்ல மாணவன்

अप्युवाचः मां प्रशंसति

Teacher praise me

ஆசிரியர் என்னைப் புகழ்கிறார்

मया सह सर्वे मित्रतां कुर्वन्ति

All make friendship with me

என்னோடு எல்லோரும் நட்புகொள்கிறீர்கள்

मह्यम् पठनं रोचते

Reading is liked by me

எனக்கு படிப்பு பிடிக்கும்

मत् अधिकः श्रमो अन्य छात्रः नास्ति

There is no one more labourous student than me

என்னிலிருந்து மிகுந்த முயற்சியுடையவர் வேறு யாரும் இல்லை

मम पिता व्यवसायी अस्ति

My father is a businessman

என்னுடைய தந்தை தொழிலாளர்

अहं मोहनः अस्मि

I am Mohan

நான் மோகன்

इयं नीला अस्ति

She is Neela

ஆவள் நீலா

आवाम् समयेन विद्यालयं गच्छामः

We go to School in time

நாமிருவரும் நேரத்தோடு பள்ளிக்கு செல்கிறோம்

विलम्बागमनं आवाम् भीषति

Late coming makes us to get fear

தாமதமான வருகை எங்களிருவரை பயமுறுத்துகிறது

गृहकार्यं आकाश्यां शरीरं द्विवारे

Homework is done together by us

வீட்டு வேலை எங்களிருவரால் செய்யப்படுகிறது

नीलायाः माता आवाभ्यां दुग्धं दासति

Neelas mother provides milk for us

நீலாவின் தாய் எங்கள் இருவருக்கும் பால் கொடுக்கிறாள்

आवाभ्यां अधिकम् सुन्दरं गृहकार्यं अन्यस्य न भवति

No one does better homeworks than us

எங்கள் இருவருடையதை விட சிறந்த வீட்டுப்பாடம் யாருடையதும் இல்லை

आवयोः चिन्तनम् समानं भवति

Our thinking is same

எங்கள் இருவரின் சிந்தனையும் சமமானது

आवयोः गुणाः दोषाः समानाः सन्ति

Goods and bads are equally in us

எங்கள் இருவரின் குணங்களும் குற்றங்களும் சமமானவை

वयं भारतदेशे वसामः

We live in India

நாம் பாரததேசத்தில் வசிக்கிறோம்

अन्ये अस्मान् भारतीयः इति कथयन्ति

Others call us as Indians

பிறர் நம்மை பாரதியர்கள் என்று அழைக்கிறார்கள்

अस्माभिः अन्यस्य अपकारः न जियते

No one is hurt by us

நமமால் பிறர்க்கு தீமை செய்யப்படுவதில்லை

अस्मभ्यम् देशः सर्वोपरि अस्ति

The country is above all for us

நம்முடைய நாடு எல்லாவற்றுக்கும் மேலானது

अस्मत् अधिकं देशचिन्तां न कोऽपि करोति

No one thinks more about country

நம்மை விட நாட்டைப் பற்றிய மேலான எண்ணம் யாரும் கொள்வதில்லை

अस्माकं देशः महान् अस्ति

Our Country is great

நம் நாடு சிறந்தது

अस्मान् देशेऽपि अधिकं भवति

The love for country is more in us

நம்மில் நாட்டுப்பற்று அதிகம் உள்ளது

Lesson - 10

त्वं कः?

Who are you

நீ யார்

अहं त्वाम् न जानामि

I dont Know you

நான் உன்னை அறியேன்

त्वया किमर्थम् आगतम्

Why did you come

நீ எதற்கு வந்தாய்

तुभ्यम् किम् अपेक्षितम्

What do you want

உனக்கு என்ன வேண்டும்

एवम् सर्वे विभ्यति

All are afraid of you

உன்ஸிடம் எல்லோரும் பயப்படுகின்றனர்

तव नाम किम्

what is your name

உன் பெயர் என்ன

त्वानि कः विशेषः अस्ति

What is special in you

உன்ஸிடம் என்ன சிறப்பு உள்ளது

सुवाम् कुत्र अगच्छताम्

Where did you go

நீங்களிருவர் எங்கு சென்றீர்கள்

माता सुवाम् अन्वीषन्

Mother was Searching for you

அம்மா உங்களிருவரை தேடினாள்

सुवाभ्याम् किमर्थं परस्परम् कलहाः क्रियते

Why do you quarell with each other

உங்களிருவரால் எதற்கு சண்டை போடப்படுகிறது

माता सुवाभ्याम् मिष्टान्नं दास्यति

Mother will give you sweet

அம்மா உங்களிருவருக்கும் இனிப்பு தருவாள்

सुवाभ्याम् अधिकः प्रियः मम कः अस्ति

Who is more lovable for me than you both

உங்களிருவரைவிட பிரியமானவர்கள் யாருக்கிதார்கள்

अहं युवचोः कथाम् अनन्तरं श्रोष्यामि

I will hear your story later

நான் உங்களிருவரின் கதையை பிறகு கேட்கிறேன்

युवचोः कः प्येष्टः?

Who is elder in you

உங்களில் யார் பெரியவர்

पुत्रयोः किमर्थं कोलाहलं कुर्वथ

Why are you all making noise

நீங்கள் ஏதற்கு சத்தம் செய்கிறீர்கள்

अथ अहं पुत्रान् कुहाण् पश्यामि

Today I see you all angry

இன்று உங்களை கோபக்காரனாக பார்த்தேன்

पुत्राभिः मम कथा न श्रूयते

My talk is not heard by you all

உங்களால் என் கதை கேட்கப்படவில்லை

पुत्राभ्यम् कथा रोचते किम्

Do I all like the story you

உங்களுக்கு கதை பிடித்திருக்கிறதா என்ன

पुत्रात् सर्वे अध्यापकाः क्लृप्ताः भवन्ति

All the teachers are afraid of you

உங்களிடமிருந்து எல்லா ஆசிரியர்களும் பயப்பட்டவர்களாக இருக்கின்றனர்

पुत्राक कोलाहलः शान्तः भविष्यति च वा?

Will your quarrell end or not

உங்களுடைய சண்டை அமைதியாகுமா இல்லையா

पुत्रासु कः नेता अस्ति

Who is leader among you

உங்களில் தலைவர் யார்

सातव भगिनि अस्ति

She is your sister

அவள் உன் சகோதரி

ताम् पृच्छ

Ask her

அவளைக் கேள்

तया कि क्रियते

What is done by her

அவளால் என்ன செய்யப்படுகிறது

तस्यै किम् रोचते

What does she like

அவளுக்கு என்ன பிடிக்கும்

तस्याः दूरत् न लिष्ट

Dont be far away from her

அவளிடமிருந்து தொலைவில் நிற்காதே

तस्याः वाणी मधुरा अस्ति

Her voice is sweet

அவளுடைய குரல் இனிமையாக உள்ளது

तस्या सर्वै सगुणाः सन्ति

All the good qualities are in her

அவரில் எல்லா நல்ல குணங்களும் உள்ளன

ते कुतः आगच्छन्तः

Where are they coming from

அவர்களுவர் எங்கிருந்து வருகிறார்கள்

पृच्छ ते

Ask them

அவர்களுரைக் கேள்

ताभ्याम् सह कः आसीत्

Who was with them

सः ताभ्याम् किम् अवदात्

அவரிருவரோடு யாதிருக்கிறார்கள்

What did he give them

அவன் அவரிருவருக்கு என்ன கொடுத்தான்

ताभ्यां वृत्त् सः किमर्थं अगच्छत्

Why did he go away from him

அவன் அவரிருவரிடமிருந்து ஏன் தூரமாக சென்றான்

तयोः मनसि किम् अस्ति

What is in their mind

அவரிருவரின் மனதில் என்ன உள்ளது

तयोः शीला कस्य

Who is sheela among them

அவரிருவரில் யார் ஷீலா

ताः महाविद्यालयस्य छात्राः सन्ति

They are college students

அவர்கள் கல்லூரி மாணவிகள்

कः ताः प्रश्नसि

Who will ask them

அவர்களை எவன் கேட்கிறான்

ताभिः सर्वे उपहस्यन्ते

All are laughed at by them

அவரிருவர்களால் எல்லோரும் கேலி செய்யப்படுகின்றனர்

ताभ्यः वार्तालापः रोचते

They like talks

அவர்களுக்கு அரட்டை பிடிக்கும்

ताभ्याः अध्यापकाः अपि भीताः सन्ति

Teachers are also afraid of them

அவர்களிடமிருந்து ஆசிரியர்கள்

ஆசிரியர்கள் கூட பயப்படுகிறார்கள்

तासां विरोधे गमिष्यति

Who will go against them

அவர்களுக்கு எதிராக யார் செல்வார்கள்

तासु पौठा शान्ता अस्ति

The fist one among them is calm

அவர்களில் பெருந்தவன் சாந்தர்

LESSON-11

क: सः	Who is he யார் அவன்
सः किम् पठति	What is he reading அவன் என்ன படிக்கிறான்
सः केन वाहनेन कलाशालां गच्छति	By which vehicle does he go to the school அவன் என்ன வாகனத்தால் பள்ளிக்கு செல்கிறான்
सः कस्यै पत्रं ददाति	To whom does he give the letter அவன் யாருக்கு கடிததை கொடுக்கிறான்
सः वस्त्रात् स्वाम् आगच्छति	From where does he come அவன் எங்கிருந்து வருகிறான்
सः नदिम् प्रकोष्ठे वसति	In Which room does he live அவன் எந்த அறையில் வசிக்கிறான்
तौ की भक्तः	who are they அவர்களுக்குவரும் யாவர்
अहम् की आवश्यम्	Whom should I bring நான் எவரிருவரை கூட்டிவரவேண்டும்
काव्याम् संस्कृतम् न पठन्ते	By whom is sanskrit not read எவரிருவரால் ஸம்ஸ்கிருதம் படிக்கப்படவில்லை
काव्याम् संवोदकः अद्य पुरस्कारम् दाम्यते	For whom will the organiser give prize எவரிருவருக்கு அமைப்பாளர் பரிசுகளைத் தருவார்
ध्वान् काभ्यां लताभ्याम् पुष्पाणि अर्पितवन्तः	From which two creepers did you pluck the flower நீங்கள் எந்த இரு கொடிகளிலிருந்து பூக்களைப் பறித்தீர்கள்
कस्योः मैत्री ह्य अस्ति	Whose friendship is strong எவரிருவருடைய நட்பு பலமானது
प्रयोगे कस्योः नद्योः मेलनं भवति	Meeting of which two rivers take place பிரயாணையில் எந்த இரு நதிகளின் சங்கமம் இருக்கிறது
कस्योः विद्यालययोः संस्कृतम् पाठ्यते	In Which two schools in sanskrit taught எந்த இரு பள்ளிகளில் ஸம்ஸ்கிருதம்
ते के भवन्ति	Who are they அவர்கள் எவர்கள்
अहं कान् प्रश्नयामः	Whom will I ask நான் எவர்களைக் கேட்டுப் பள்

के: सह त्वं विद्यालयम् गच्छति

With whom do you go to school

தீ எவர்களுோடு பள்ளி செல்வாய்

केभ्यः हिन्दि मातृभाषा अस्ति

For whom is Hindi a mother tongue

எவர்களுக்குஹிந்தி தாய்மொழியாக உள்ளது

केभ्यः देशेभ्यः सहायता आगच्छति

From which countries are the help coming from

எந்த தேசத்திலிருந்து உதவி வருகிறது

केसाम् गृह मद्रासाम् अस्ति

Whose house is in Madras

எவர்களுடைய வீடு சென்னையில் உள்ளது

केतु विद्यालयेषु संस्कृतम् पाठ्यते

In Which school is sanskrit taught

எந்தபள்ளியில்ஸம்ஸ்கிருதம் கற்பிக்கப்படுகிறது

LESSON-12

सा का अस्ति

Who is She

யார் அவள்

त्वं कं पश्यसि

Whom do you see

நீ யாரைப் பார்கிறாய்

इदं क्वा लिखितम् अस्ति

By whom it is written

இது யாரால் எழுதப்பட்டது

इदं पुष्पं कस्यै त्वं दास्यसि

For whom will you give this flowers

நீ யாருக்கு இந்தப்பூவை கொடுப்பாய்

धीरः कान्वाः नद्याः यत्स्यान् आरुहति

From which river fishermen bring out the Fish

மீனவன் எந்த நதியிலிருந்து மீனைக் கொண்டு வருகிறான்

कस्याः पुस्तकम् इदम्

Whose book is there

இது யாருடைய புத்தகம்

कस्याम् नद्यां तव अङ्गुलीयकम् अपतत्

In which river does your ring fall down

எந்த நதியில் உன் மோதிரம் விழுந்தது

(सहासकस्यै सुधाणि)

१	भू धातुः	लट् लकारः		
		एकवचनम्	द्विवचनम्	बहुवचनम्
	प्रथम पुरुषः	भवति	भवतः	भवन्ति
	मध्यम पुरुषः	भवसि	भवथः	भवथ
	उत्तम पुरुषः	भवामि	भवामः	भवामः
२	भू धातुः	लिट् लकारः		
		एकवचनम्	द्विवचनम्	बहुवचनम्
	प्रथम पुरुषः	बभूव	बभूवतुः	बभूवुः
	मध्यम पुरुषः	बभूवथि	बभूवथुः	बभूवथ
	उत्तम पुरुषः	बभूवाम	बभूवामः	बभूवामः
३	भू धातुः	लृट् लकारः		
		एकवचनम्	द्विवचनम्	बहुवचनम्
	प्रथम पुरुषः	भविता	भवितासी	भवितारः
	मध्यम पुरुषः	भवितासि	भवितास्वः	भवितास्व

	उत्तम पुरुषः	भवितास्मि	भवितास्वः	भवितास्मः
४	भू धातुः	रुट् लकारः		
		एकवचनम्	द्विवचनम्	बहुवचनम्
	प्रथम पुरुषः	भविष्यती	भविष्यतः	भविष्यन्ति
	मध्यम पुरुषः	भविष्यसि	भविष्यथः	भविष्यथ
	उत्तम पुरुषः	भविष्यामि	भविष्यावः	भविष्यामः
५	भू धातुः	लोट् लकारः		
		एकवचनम्	द्विवचनम्	बहुवचनम्
	प्रथम पुरुषः	भवतु, भवतात्	भवतां	भवन्तु
	मध्यम पुरुषः	भव, भवतात्	भवत	भवत
	उत्तम पुरुषः	भवामि	भवाम	भवाम
६	भू धातुः	लङ् लकारः		
		एकवचनम्	द्विवचनम्	बहुवचनम्
	प्रथम पुरुषः	अभवत्	अभवतां	अभवन्
	मध्यम पुरुषः	अभवः	अभवतां	अभवत
	उत्तम पुरुषः	अभवम्	अभवाव	अभवाम
७	भू धातुः	विधिलिङ् लकारः		
		एकवचनम्	द्विवचनम्	बहुवचनम्
	प्रथम पुरुषः	भवेत्	भवेतां	भवेयुः
	मध्यम पुरुषः	भवे	भवेत	भवेत
	उत्तम पुरुषः	भवेथ	भवेथ	भवेम
८	भू धातुः	आशीर्लिङ् लकारः		
		एकवचनम्	द्विवचनम्	बहुवचनम्
	प्रथम पुरुषः	भूयात्	भूयास्तां	भूयासु
	मध्यम पुरुषः	भूयाः	भूयास्त	भूयास
	उत्तम पुरुषः	भूयाथ	भूयाथ	भूयास
९	भू धातुः	लुङ् लकारः		
		एकवचनम्	द्विवचनम्	बहुवचनम्
	प्रथम पुरुषः	अभूत्	अभूतां	अभूवन्
	मध्यम पुरुषः	अभू	अभूत	अभूत
	उत्तम पुरुषः	अभूथ	अभूथ	अभूथ
१०	भू धातुः	लृट् लकारः		

	एकवचनम्	द्विवचनम्	बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः	अभविष्यत्	अभविष्यातां	अभविष्यन्
मध्यम पुरुषः	अभविष्यासि	अभविष्यथ	अभविष्याथ
उत्तम पुरुषः	अभविष्याम	अभविष्याम	अभविष्याम

१ षट् धातुः लट् लकारः

	एकवचनम्	द्विवचनम्	बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः	पठति	पठतः	पठन्ति
मध्यम पुरुषः	पठसि	पठथः	पठथ
उत्तम पुरुषः	पठामि	पठावः	पठामः

२ षट् धातुः लिट् लकारः

	एकवचनम्	द्विवचनम्	बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः	पठति	पठतुः	पठन्तुः
मध्यम पुरुषः	पठसि	पठतुः	पठन्तुः
उत्तम पुरुषः	पठामि, वपठ	पठिथ	पठिथ

३ षट् धातुः लृट् लकारः

	एकवचनम्	द्विवचनम्	बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः	पठिता	पठिताम्	पठिताम्
मध्यम पुरुषः	पठिसि	पठिताम्	पठिताम्
उत्तमपुरुषः	पठितामि	पठिताम्	पठिताम्

४ षट् धातुः लृट् लकारः

	एकवचनम्	द्विवचनम्	बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः	पठिष्यति	पठिष्यतः	पठिष्यन्ति
मध्यम पुरुषः	पठिष्यसि	पठिष्यथ	पठिष्यथ
उत्तम पुरुषः	पठिष्यामि	पठिष्याम	पठिष्याम

५ षट् धातुः लोट् लकारः

	एकवचनम्	द्विवचनम्	बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः	पठन्तु, पठन्तु	पठन्तु	पठन्तु
मध्यम पुरुषः	पठ, पठन्तु	पठन्तु	पठन्तु
उत्तम पुरुषः	पठामि	पठाव	पठाम

६ षट् धातुः लङ् लकारः

	एकवचनम्	द्विवचनम्	बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः	अपठत्	अपठतां	अपठन्

मध्यम पुरुषः	अपठ	अपठतां	अपठत
उत्तम पुरुषः	अपठन्	अपठाम	अपठाम

७ पठ् धातुः चिञिनिङ् लकारः

	एकवचनम्	द्विवचनम्	बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः	पठेत्	पठेतां	पठेयुः
मध्यम पुरुषः	पठे	पठेत	पठेत
उत्तम पुरुषः	पठेथ	पठेथ	पठेम

८ पठ् धातुः आशीलिङ् लकारः

	एकवचनम्	द्विवचनम्	बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः	पठ्यात्	पठ्यास्तां	पठ्यासुः
मध्यम पुरुषः	पठ्या	पठ्यास्त	पठ्यास्त
उत्तम पुरुषः	पठ्यात	पठ्यास्य	पठ्यासम

९ पठ् धातुः तुङ् लकारः

	एकवचनम्	द्विवचनम्	बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः	अपठीत्	अपठिष्टां	अपठिषुः
मध्यम पुरुषः	अपठी	अपठिष्ट	अपठिष्ट
उत्तम पुरुषः	अपठिथ	अपठिष्व	अपठिषम

पठ् धातुः लृङ् लकारः

	एकवचनम्	द्विवचनम्	बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः	अपठिष्यात्	अपठिष्याताम्	अपठिष्यन्
मध्यम पुरुषः	अपठिष्यः	अपठिष्यातम्	अपठिष्यत
उत्तम पुरुषः	अपठिष्यम्	अपठिष्याथ	अपठिष्याम

गम् धातुः (दशलकारेषु रूपाणि)

१ गम् धातुः लट् (यत्तमान् कालः)

	एकवचनम्	द्विवचनम्	बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः	गच्छति	गच्छतां	गच्छन्ति
मध्यम पुरुषः	गच्छसि	गच्छथ	गच्छन्
उत्तम पुरुषः	गच्छामि	गच्छाम	गच्छामः

२ गम् धातुः लिट् (परोक्ष अनद्यतन भूत काल)

	एकवचनम्	द्विवचनम्	बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः	जगाम	जगामुः	जग्मुः
मध्यम पुरुषः	जगामिथ, जगामथ	जगामुथ	जगाम
उत्तम पुरुषः	जगाम जगाम	जगामिथ	जगामिथ

3	गम् धातुः लृट् (अनध्यतन भविष्यत्कालः)			
		एकवचनम्	द्विवचनम्	बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः	गन्ता	गन्तारी	गन्तारौ	गन्तारः
मध्यम पुरुषः	गन्तासि	गन्तास्वः	गन्तावः	गन्तास्व
उत्तम पुरुषः	गन्तामि	गन्तास्वः	गन्तामः	गन्तामः

4	गम् धातुः लृट् (सामान्य भविष्यत् काल)			
		एकवचनम्	द्विवचनम्	बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः	गमिष्यति	गमिष्यतः	गमिष्यतः	गमिष्यन्ति
मध्यम पुरुषः	गमिष्यसि	गमिष्यथः	गमिष्यथः	गमिष्यथ
उत्तम पुरुषः	गमिष्यामि	गमिष्यावः	गमिष्यामः	गमिष्यामः

5	गम् धातुः लोट् (आज्ञा तथा आशीर्वाद आदि)			
		एकवचनम्	द्विवचनम्	बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः	गच्छतु (गच्छतातु)	गच्छताम्	गच्छताम्	गच्छन्तु
मध्यम पुरुषः	गच्छतु (गच्छतातु)	गच्छताम्	गच्छताम्	गच्छतु
उत्तम पुरुषः	गच्छानि	गच्छाव	गच्छाम	गच्छाम

अकारान्तः पुल्लिङ्गः देव शब्दः

देव शब्दः	एकवचनम्	द्विवचनम्	बहुवचनम्
प्रथमाविभक्तिः	देवः	देवौ	देवाः
द्वितीयाविभक्तिः	देवं	देवौ	देवान्
तृतीयाविभक्तिः	देवेन	देवाभ्यां	देवैः
चतुर्थीविभक्तिः	देवाय	देवाभ्यां	देवेभ्यः
पञ्चमीविभक्तिः	देवात्	देवाभ्यां	देवेभ्यः
षष्ठीविभक्तिः	देवस्य	देवयोः	देवानां
सप्तमीविभक्तिः	देवे	देवयोः	देवेषु
सम्बोधनप्रथमाविभक्तिः	हे देव	हे देवौ	हे देवाः

इकारान्तः पुल्लिङ्गः मुनि शब्दः

मुनि शब्दः	एकवचनम्	द्विवचनम्	बहुवचनम्
प्रथमाविभक्तिः	मुनिः	मुनी	मुनयः
द्वितीयाविभक्तिः	मुनिं	मुनी	मुनीन्
तृतीयाविभक्तिः	मुनिना	मुनिभ्यां	मुनिभिः
चतुर्थीविभक्तिः	मुनये	मुनिभ्यां	मुनिभ्यः
पञ्चमीविभक्तिः	मुनेः	मुनिभ्यां	मुनिभ्यः
षष्ठीविभक्तिः	मुनेः	मुन्योः	मुनीनां
सप्तमीविभक्तिः	मुनौ	मुन्योः	मुनिषु
सम्बोधनप्रथमाविभक्तिः	हे मुने	हे मुनी	हे मुनयः

उकारान्तः पुल्लिङ्गः गुरु शब्दः

गुरु शब्दः	एकवचनम्	द्विवचनम्	बहुवचनम्
प्रथमाविभक्तिः	गुरुः	गुरू	गुरवः
द्वितीयाविभक्तिः	गुरुं	गुरू	गुरून्
तृतीयाविभक्तिः	गुरुणा	गुरुभ्यां	गुरुभिः
चतुर्थीविभक्तिः	गुरवे	गुरुभ्यां	गुरुभ्यः
पञ्चमीविभक्तिः	गुरोः	गुरुभ्यां	गुरुभ्यः
षष्ठीविभक्तिः	गुरोः	गुर्वोः	गुरूणां
सप्तमीविभक्तिः	गुरौ	गुर्वोः	गुरुषु
सम्बोधनप्रथमाविभक्तिः	हे गुरो	हे गुरू	हे गुरवः

ऋकारान्तः पुल्लिङ्गः पितृ शब्दः

पितृ शब्दः	एकवचनम्	द्विवचनम्	बहुवचनम्
प्रथमाविभक्तिः	पिता	पितरौ	पितरः
द्वितीयाविभक्तिः	पितरं	पितरौ	पितृन्
तृतीयाविभक्तिः	पित्रा	पितृभ्यां	पितृभिः
चतुर्थीविभक्तिः	पित्रे	पितृभ्यां	पितृभ्यः
पञ्चमीविभक्तिः	पितुः	पितृभ्यां	पितृभ्यः
षष्ठीविभक्तिः	पितुः	पित्रोः	पितृणां
सप्तमीविभक्तिः	पितरि	पित्रोः	पितृषु

सम्बोधनप्रथमविभक्तिः	हे पितः	हे पितरौ	हे पितरः
----------------------	---------	----------	----------

ओकारान्तः पुल्लिङ्गः गो शब्दः

गो	एकवचनम्	द्विवचनम्	बहुवचनम्
प्रथमाविभक्तिः	गौः	गावौ	गावः
द्वितीयाविभक्तिः	गां	गावौ	गाः
तृतीयाविभक्तिः	गवा	गोभ्यां	गोभिः
चतुर्थीविभक्तिः	गवे	गोभ्यां	गोभ्यः
पञ्चमीविभक्तिः	गोः	गोभ्यां	गोभ्यः
षष्ठीविभक्तिः	गोः	गवोः	गवां
सप्तमीविभक्तिः	गवि	गवोः	गोषु
सम्बोधनप्रथमाविभक्तिः	हे गौः	हे गावौ	हे गावः

आकारान्तः स्त्रीलिङ्गः छात्रा शब्दः

छात्रा	एकवचनम्	द्विवचनम्	बहुवचनम्
प्रथमाविभक्तिः	छात्रा	छात्रे	छात्राः
द्वितीयाविभक्तिः	छात्रां	छात्रे	छात्राः
तृतीयाविभक्तिः	छात्रया	छात्राभ्यां	छात्राभिः
चतुर्थीविभक्तिः	छात्रायै	छात्राभ्यां	छात्राभ्यः
पञ्चमीविभक्तिः	छात्रायाः	छात्राभ्यां	छात्राभ्यः
षष्ठीविभक्तिः	छात्रायाः	छात्रयोः	छात्राणां

सप्तमीविभक्तिः	छात्रायां	छात्रयोः	छात्रासु
सम्बोधनप्रथमाविभक्तिः	हे छात्रे	हे छात्रे	हे छात्राः

इकारान्तः स्त्रीलिङ्गः मति शब्दः

मतिः	एकवचनम्	द्विवचनम्	बहुवचनम्
प्रथमाविभक्तिः	मतिः	मती	मतयः
द्वितीयाविभक्तिः	मतिं	मती	मतीः
तृतीयाविभक्तिः	मत्या	मतिभ्यां	मतिभिः
चतुर्थीविभक्तिः	मत्यै/मतये	मतिभ्यां	मतिभ्यः
पञ्चमीविभक्तिः	मत्याः/मतेः	मतिभ्यां	मतिभ्यः
षष्ठीविभक्तिः	मत्याः/मतेः	मत्योः	मतीनां
सप्तमीविभक्तिः	मत्यां/मतीं	मत्योः	मतिषु
सम्बोधनप्रथमाविभक्तिः	हे मते	हे मती	हे मतयः

ईकारान्तः स्त्रीलिङ्गः गौरी शब्दः

गौरी	एकवचनम्	द्विवचनम्	बहुवचनम्
प्रथमाविभक्तिः	गौरी	गौर्यौ	गौर्यः
द्वितीयाविभक्तिः	गौरीं	गौर्यौ	गौरीः
तृतीयाविभक्तिः	गौर्या	गौरीभ्यां	गौरीभिः
चतुर्थीविभक्तिः	गौर्यै	गौरीभ्यां	गौरीभ्यः
पञ्चमीविभक्तिः	गौर्याः	गौरीभ्यां	गौरीभ्यः

षष्ठीविभक्तिः	गौर्याः	गौर्याः	गौरीणां
सप्तमीविभक्तिः	गौर्या	गौर्याः	गौरीषु
सम्बोधनप्रथमाविभक्तिः	हे गौरि	हे गौर्यी	हे गौर्यः

उकारान्तः स्त्रीलिङ्गः धेनु शब्दः

धेनुः	एकवचनम्	द्विवचनम्	बहुवचनम्
प्रथमाविभक्तिः	धेनुः	धेनू	धेनवः
द्वितीयाविभक्तिः	धेनुं	धेनू	धेनूः
तृतीयाविभक्तिः	धेन्वा	धेनुभ्यां	धेनुभिः
चतुर्थीविभक्तिः	धेन्वै/धेनवे	धेनुभ्यां	धेनुभ्यः
पञ्चमीविभक्तिः	धेन्वाः/धेनोः	धेनुभ्यां	धेनुभ्यः
षष्ठीविभक्तिः	धेन्वाः/धेनोः	धेन्वोः	धेनूनां
सप्तमीविभक्तिः	धेन्वां/धेनौ	धेन्वोः	धेनुषु
सम्बोधनप्रथमाविभक्तिः	हे धेनो	हे धेनू	हे धेनवः

ऋकारान्तः स्त्रीलिङ्गः मातृ शब्दः

मातृ	एकवचनम्	द्विवचनम्	बहुवचनम्
प्रथमाविभक्तिः	माता	मातरौ	मातरः
द्वितीयाविभक्तिः	मातरं	मातरौ	मातृः
तृतीयाविभक्तिः	मात्रा	मातृभ्यां	मातृभिः
चतुर्थीविभक्तिः	मात्रे	मातृभ्यां	मातृभ्यः

पञ्चमीविभक्तिः	मातुः	मातृभ्यां	मातृभ्यः
षष्ठीविभक्तिः	मातुः	मात्रोः	मातृणां
सप्तमीविभक्तिः	मातरि	मात्रोः	मातृषु
सम्बोधनप्रथमाविभक्तिः	हे मातः	हे मातरौ	हे मातरः

अकारान्तः नपुंसकलिङ्गः वन शब्दः

वनम्	एकवचनम्	द्विवचनम्	बहुवचनम्
प्रथमाविभक्तिः	वनम्	वने	वनानि
द्वितीयाविभक्तिः	वनम्	वने	वनानि
तृतीयाविभक्तिः	वनेन	वनाभ्यां	वनैः
चतुर्थीविभक्तिः	वनाय	वनाभ्यां	वनेभ्यः
पञ्चमीविभक्तिः	वनात्	वनाभ्यां	वनेभ्यः
षष्ठीविभक्तिः	वनस्य	वनयोः	वनानां
सप्तमीविभक्तिः	वने	वनयोः	वनेषु
सम्बोधनप्रथमाविभक्तिः	हे वन	हे वने	हे वनानि

दकारान्तः त्रिषुलिङ्गेषु समानरूपः अस्मद् शब्दः

अस्मद्	एकवचनम्	द्विवचनम्	बहुवचनम्
प्रथमाविभक्तिः	अहं	आवां	वयं
द्वितीयाविभक्तिः	मां/मा	आवां/नौ	अस्मान्/नः
तृतीयाविभक्तिः	मया	आवाभ्यां	अस्माभिः

चतुर्थीविभक्तिः	मह्यं/मे	आवाभ्यां/नौ	अस्मभ्यं/नः
पञ्चमीविभक्तिः	मत्	आवाभ्यां	अस्मत्
षष्ठीविभक्तिः	मम/मे	आवयोः/नौ	अस्माकं/नः
सप्तमीविभक्तिः	मयि	आवयोः	अस्मासु

दकारान्तः त्रिषुलिङ्गेषु समानरूपः युष्मद् शब्दः

युष्मद्	एकवचनम्	द्विवचनम्	बहुवचनम्
प्रथमाविभक्तिः	त्वं	युवां	यूयम्
द्वितीयाविभक्तिः	त्वां/त्वा	युवां/वां	युष्मान्/वः
तृतीयाविभक्तिः	त्वया	युवाभ्यां	युष्माभिः
चतुर्थीविभक्तिः	तुभ्यं/ते	युवाभ्यां/वां	युष्मभ्यं/वः
पञ्चमीविभक्तिः	त्वत्	युवाभ्यां	युष्मत्
षष्ठीविभक्तिः	तव/ते	युवयोः/वां	युष्माकं/वः
सप्तमीविभक्तिः	त्वयि	युवयोः	युष्मासु

दकारान्तः पुल्लिङ्गः तद् शब्दः

तद्	एकवचनम्	द्विवचनम्	बहुवचनम्
प्रथमाविभक्तिः	सः	तौ	ते
द्वितीयाविभक्तिः	तं	तौ	तान्
तृतीयाविभक्तिः	तेन	ताभ्यां	तैः

चतुर्थीविभक्तिः	तस्मै	ताभ्यां	तेभ्यः
पञ्चमीविभक्तिः	तस्मात्	ताभ्यां	तेभ्यः
षष्ठीविभक्तिः	तस्य	तयोः	तेषां
सप्तमीविभक्तिः	तस्मिन्	तयोः	तेषु

दकारान्तः स्त्रीलिङ्गः तद् शब्दः

तद्	एकवचनम्	द्विवचनम्	बहुवचनम्
प्रथमाविभक्तिः	सा	ते	ताः
द्वितीयाविभक्तिः	तां	ते	ताः
तृतीयाविभक्तिः	तया	ताभ्यां	ताभिः
चतुर्थीविभक्तिः	तस्यै	ताभ्यां	ताभ्यः
पञ्चमीविभक्तिः	तस्याः	ताभ्यां	ताभ्यः
षष्ठीविभक्तिः	तस्याः	तयोः	तासां
सप्तमीविभक्तिः	तस्यां	तयोः	तासु

दकारान्तः नपुंसकलिङ्गः तद् शब्दः

तद्	एकवचनम्	द्विवचनम्	बहुवचनम्
प्रथमाविभक्तिः	तत्	ते	तानि
द्वितीयाविभक्तिः	तत्	ते	तानि

तृतीयाविभक्तिः	तेन	ताभ्यां	तैः
चतुर्थीविभक्तिः	तस्मै	ताभ्यां	तेभ्यः
पञ्चमीविभक्तिः	तस्मात्	ताभ्यां	तेभ्यः
षष्ठीविभक्तिः	तस्य	तयोः	तेषां
सप्तमीविभक्तिः	तस्मिन्	तयोः	तेषु

दकारान्तः पुल्लिङ्गः एतद् शब्दः

एतद्	एकवचनम्	द्विवचनम्	बहुवचनम्
प्रथमाविभक्तिः	एषः	एतौ	एते
द्वितीयाविभक्तिः	एतं	एतौ	एतान्
तृतीयाविभक्तिः	एतेन	एताभ्यां	एतैः
चतुर्थीविभक्तिः	एतस्मै	एताभ्यां	एतेभ्यः
पञ्चमीविभक्तिः	एतस्मात्	एताभ्यां	एतेभ्यः
षष्ठीविभक्तिः	एतस्य	एतयोः	एतेषां
सप्तमीविभक्तिः	एतस्मिन्	एतयोः	एतेषु

दकारान्तः स्त्रीलिङ्गः एतद् शब्दः

एतद्	एकवचनम्	द्विवचनम्	बहुवचनम्
प्रथमाविभक्तिः	एषा	एते	एताः

द्वितीयाविभक्तिः	एतां	एते	एताः
तृतीयाविभक्तिः	एतया	एताभ्यां	एताभिः
चतुर्थीविभक्तिः	एतस्यै	एताभ्यां	एताभ्यः
पञ्चमीविभक्तिः	एतस्याः	एताभ्यां	एताभ्यः
षष्ठीविभक्तिः	एतस्याः	एतयोः	एतासां
सप्तमीविभक्तिः	एतस्यां	एतयोः	एतासु

दकारान्तः नपुंसकलिङ्गः एतद् शब्दः

एतद्	एकवचनम्	द्विवचनम्	बहुवचनम्
प्रथमाविभक्तिः	एतत्	एते	एतानि
द्वितीयाविभक्तिः	एतत्	एते	एतानि
तृतीयाविभक्तिः	एतेन	एताभ्यां	एतैः
चतुर्थीविभक्तिः	एतस्मै	एताभ्यां	एतेभ्यः
पञ्चमीविभक्तिः	एतस्मात्	एताभ्यां	एतेभ्यः
षष्ठीविभक्तिः	एतस्य	एतयोः	एतेषां
सप्तमीविभक्तिः	एतस्मिन्	एतयोः	एतेषु

मकारान्तः पुलिङ्गः इदम् शब्दः

इदम्	एकवचनम्	द्विवचनम्	बहुवचनम्
प्रथमाविभक्तिः	अयं	इमौ	इमे
द्वितीयाविभक्तिः	इमम्/एनम्	इमौ/एनौ	इमान्/एनान्
तृतीयाविभक्तिः	अनेन/एनेन	आभ्यां	एभिः
चतुर्थीविभक्तिः	अस्मै	आभ्यां	एभ्यः
पञ्चमीविभक्तिः	अस्मात्	आभ्यां	एभ्यः
षष्ठीविभक्तिः	अस्य	अनयोः/एनयोः	एषां
सप्तमीविभक्तिः	अस्मिन्	अनयोः/एनयोः	एषु

मकारान्तः स्त्रीलिङ्गः इदम् शब्दः

इदम्	एकवचनम्	द्विवचनम्	बहुवचनम्
प्रथमाविभक्तिः	इयम्	इमे	इमाः
द्वितीयाविभक्तिः	इमाम्/एनाम्	इमे/एने	इमाः/एनाः
तृतीयाविभक्तिः	अनया/एनया	आभ्यां	आभिः
चतुर्थीविभक्तिः	अस्यै	आभ्यां	आभ्यः
पञ्चमीविभक्तिः	अस्याः	आभ्यां	आभ्यः
षष्ठीविभक्तिः	अस्याः	अनयोः	आसाम्
सप्तमीविभक्तिः	अस्याम्	अनयोः	आसु

मकारान्तः नपुंसकलिङ्गः इदम् शब्दः

इदम्	एकवचनम्	द्विवचनम्	बहुवचनम्
प्रथमाविभक्तिः	इदम्	इमे	इमानि
द्वितीयाविभक्तिः	इदम्/एनत्	इमे/एने	इमानि/एनानि
तृतीयाविभक्तिः	अनेन/एनेन	आभ्यां	एभिः
चतुर्थीविभक्तिः	अस्मै	आभ्यां	एभ्यः
पञ्चमीविभक्तिः	अस्मात्	आभ्यां	एभ्यः
षष्ठीविभक्तिः	अस्य	अनयोः/एनयोः	एषां
सप्तमीविभक्तिः	अस्मिन्	अनयोः/एनयोः	एषु

मकारान्तः पुल्लिङ्गः किम् शब्दः

किम्	एकवचनम्	द्विवचनम्	बहुवचनम्
प्रथमाविभक्तिः	कः	कौ	के
द्वितीयाविभक्तिः	कं	कौ	कान्
तृतीयाविभक्तिः	केन	काभ्यां	कैः
चतुर्थीविभक्तिः	कस्मै	काभ्यां	केभ्यः
पञ्चमीविभक्तिः	कस्मात्	काभ्यां	केभ्यः
षष्ठीविभक्तिः	कस्य	कयोः	केषां
सप्तमीविभक्तिः	कस्मिन्	कयोः	केषु

मकारान्तः स्त्रीलिङ्गः किम् शब्दः

किम्	एकवचनम्	द्विवचनम्	बहुवचनम्
प्रथमाविभक्तिः	का	के	काः
द्वितीयाविभक्तिः	कां	के	काः
तृतीयाविभक्तिः	कया	काभ्यां	काभिः
चतुर्थीविभक्तिः	कस्यै	काभ्यां	काभ्यः
पञ्चमीविभक्तिः	कस्याः	काभ्यां	काभ्यः
षष्ठीविभक्तिः	कस्याः	कयोः	कासां
सप्तमीविभक्तिः	कस्यां	कयोः	कासु

मकारान्तः नपुंसकलिङ्गः किम् शब्दः

किम्	एकवचनम्	द्विवचनम्	बहुवचनम्
प्रथमाविभक्तिः	कि	के	कानि
द्वितीयाविभक्तिः	कि	के	कानि
तृतीयाविभक्तिः	केन	काभ्यां	कैः
चतुर्थीविभक्तिः	कस्मै	काभ्यां	केभ्यः
पञ्चमीविभक्तिः	कस्मात्	काभ्यां	केभ्यः
षष्ठीविभक्तिः	कस्य	कयोः	केषां
सप्तमीविभक्तिः	कस्मिन्	कयोः	केषु